



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q1. Who is considered as the founder of Bengaluru?

- A. Kanaka Dasa
B. Saalummarada Thimmakka
C. Kempe Gowda
D. Basavanna

Q1. बेंगलुरु का संस्थापक किन्हें माना जाता है?

- A. कनका दासा
B. सालुमरदा तिममक्का
C. केम्पे गौड़ा
D. बसवन्ना

Q2. Which currency notes were demonitised in November 2016?

- A. 100 and 1000
B. 50 and 500
C. 100 and 500
D. 500 and 1000

Q2. नवम्बर 2016 में किन-किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था?

- A. 100 और 1000
B. 50 और 500
C. 100 और 500
D. 500 और 1000

Q3. Kaziranga National Park is located in _____.

- A. Assam
B. Bihar
C. Uttar Pradesh
D. Meghalaya

Q3. काजीरंगा नैशनल पार्क _____ में स्थित है।

- A. असम
B. बिहार
C. उत्तर प्रदेश
D. मेघालय

Q4. Pradhan Mantri Mudra Yojana is a _____.

- A. Scheme for providing accident insurance cover to Indian citizens
B. Scheme for securing future of girl child
C. Scheme for providing funding to non-corporate small business sector
D. Scheme for providing life insurance cover to Indian citizens

Q4. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना _____ है।

- A. भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने की योजना
B. बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने की योजना
C. गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने की योजना
D. भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा देने की योजना



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q5. The Third battle of Panipat was fought in _____.

- A. 1776
C. 1761
B. 1765
D. 1762

Q5. पानीपत की तीसरी लड़ाई _____ में लड़ी गई थी।

- A. 1776
C. 1761
B. 1765
D. 1762

Q6. King Harshavardhana established his capital at Thanesar near Kurukshetra in _____ AD.

- A. 800
C. 700
B. 600
D. 900

Q6. राजा हर्षवर्धन ने सन् _____ में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की।

- A. 800
C. 700
B. 600
D. 900

Q7. _____ gave Haryana the name 'Harna'.

- A. Maharaj Krishan
C. Maharaj Vardhana
B. Maharaj Vaidya
D. Maharaj Chand

Q7. _____ ने हरियाणा का नाम 'हरना' रखा था।

- A. महाराज कृष्ण
C. महाराज वर्धन
B. महाराज वैद्य
D. महाराज चान्द

Q8. _____ was the last Hindu ruler of Delhi who was born in Rewari, Haryana.

- A. Maharaja Ranvijay Singh
C. Samrat Dhyan Chandra
B. Samrat Hemchandra Vikramaditya
D. Prithvi Raj Chauhan

Q8. _____ हरियाणा के रेवारी में जन्म लेने वाले, दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे।

- A. महाराजा रणविजय सिंह
C. सम्राट ध्यान चन्द्र
B. सम्राट हेमचन्द्र विक्रमादित्य
D. पृथ्वी राज चौहान



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q9. Sakshi Malik belongs to which district of Haryana?

- A. Hisar B. Faridabad
C. Rohtak D. Rewari

Q9. साक्षी मलिक, हरियाणा के किस जिले की रहने वाली हैं?

- A. हिसार B. फरीदाबाद
C. रोहतक D. रेवारी

Q10. Which of the following has a cargo airport in Haryana?

- A. Karnal B. Rohtak
C. Hisar D. Chandigarh

Q10. निम्नलिखित में से कौन, हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है?

- A. करनाल B. रोहतक
C. हिसार D. चंडीगढ़

Q11. Who is the current Finance Minister of Haryana?

- A. Anil Vij B. Om Prakash Dhankar
C. Ram Bilas Sharma D. Captain Abhimanyu

Q11. वर्तमान में हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है?

- A. अनिल विज B. ओम प्रकाश धनकर
C. राम बिलास शर्मा D. कैप्टन अभिमन्यु

Q12. In which category did Vinesh Phogat win the Silver medal in the Asian Wrestling Championship, 2017?

- A. 45 kg B. 50 kg
C. 55 kg D. 60 kg

Q12. 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगट ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता था?

- A. 45 किलो B. 50 किलो
C. 55 किलो D. 60 किलो



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q13. Which village in Haryana has been renamed as Saraswati Nagar?

- A. Zaria
- B. Mustafabad
- C. Kaduna
- D. Neemrana

Q13. हरियाणा के किस गाँव का नाम सरवती नगर रखा गया है?

- A. ज़रिया
- B. मुस्तफाबाद
- C. कादुना
- D. नीमराना

Q14. Which award was recently given to Mahaveer Singh Phogat by the Indian government?

- A. National Teachers Award
- B. Dronacharya Award
- C. Arjuna Award
- D. Khel Ratna

Q14. भारत सरकार द्वारा महावीर सिंह फोगट को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था?

- A. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
- B. द्रोणाचार्य पुरस्कार
- C. अर्जुन पुरस्कार
- D. खेल रत्न

Q15. Which Saint-poet's birth is linked with the village called Sihi?

- A. Surender Sharma
- B. Haridas
- C. Deep Chand Bahman
- D. Surdas

Q15. किस संत-कवि के जन्म का सम्बन्ध सीही नामक गाँव से है?

- A. सुरेन्द्र शर्मा
- B. हरिदास
- C. दीप चंद बहमन
- D. सूरदास

Q16. Who wrote 'Haryana Ka Itihas'?

- A. Pandit Shri Ram Sharma
- B. Dhanpat Singh
- C. Pandit Mange Ram
- D. Baje Bhagat

Q16. 'हरियाणा का इतिहास' किसने लिखा?

- A. पंडित श्री राम शर्मा
- B. धनपत सिंह
- C. पंडित मांगे राम
- D. बाजे भगत



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q17. In which year was Dainik Haribhoomi published for the first time in Haryana?

- A. 1995
B. 1997
C. 1998
D. 1996

Q17. किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी?

- A. 1995
B. 1997
C. 1998
D. 1996

Q18. Haryanavi Ramayan was composed by _____.

- A. Khuda Baksh Ahmed
B. Surdas
C. Kalidas
D. Pandit Mange Ram

Q18. हरयाणवी रामायण की रचना _____ ने की थी।

- A. खुदा बक्श अहमद
B. सूरदास
C. कालिदास
D. पंडित मांगे राम

Q19. Gurudwara Manji Sahib is located at _____.

- A. Chandigarh
B. Ambala
C. Karnal
D. Hisar

Q19. गुरुद्वारा मंजी साहिब _____ में स्थित है।

- A. चंडीगढ़
B. अम्बाला
C. करनाल
D. हिसार

Q20. The _____ river is a tributary of the Ghaggar river.

- A. Markanda
B. Indori
C. Dohan
D. Krishnavati

Q20. _____ नदी, घग्गर नदी की एक सहायक नदी है।

- A. मार्कंड
B. इन्दोरी
C. दोहन
D. कृष्णावती



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q21. Where is the Asigarh Fort located in Haryana?

- A. Hansi B. Bahadurgarh
C. Sirsa D. Agroha

Q21. असिगढ़ किला हरियाणा में कहां स्थित है?

- A. हांसी B. बहादुरगढ़
C. सिरसा D. अग्रोहा

Q22. Kalesar National Park is situated in _____ district.

- A. Hisar B. Rewari
C. Yamunanagar D. Karnal

Q22. कालेसर राष्ट्रीय उद्यान _____ जिले में स्थित है।

- A. हिसार B. रेवाड़ी
C. यमुनानगर D. करनाल

Q23. The Jui Irrigation system is an example of _____ irrigation.

- A. Gravity B. Drip
C. Sprinkler D. Lift

Q23. जुई सिंचाई प्रणाली, _____ सिंचाई का एक उदाहरण है।

- A. ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण B. ड्रिप या टपक
C. स्प्रिंकलर या छिड़काव D. लिफ्ट या उठाव

Q24. Which two districts are irrigated by the Gurgaon canal?

- A. Gurgaon, Rewari B. Gurgaon, Bhiwani
C. Gurgaon, Faridabad D. Gurgaon, Rohtak

Q24. गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती है?

- A. गुड़गांव, रेवाड़ी B. गुड़गांव, भिवानी
C. गुड़गांव, फरीदाबाद D. गुड़गांव, रोहतक



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q25. What is the minimum age limit to be the Governor of an Indian state?

- A. 35 B. 40
C. 42 D. 32

Q25. भारतीय राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है?

- A. 35 B. 40
C. 42 D. 32

Q26. Jakhal Junction is located in which district?

- A. Panchkula B. Sonapat
C. Faridabad D. Fatehabad

Q26. जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है?

- A. पंचकुला B. सोनीपत
C. फरीदाबाद D. फतेहाबाद

Q27. The Central Government's Dairy Research Centre is in _____.

- A. Hisar B. Kurukshetra
C. Sirsa D. Karnal

Q27. केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र _____ में स्थित है।

- A. हिसार B. कुरुक्षेत्र
C. सिरसा D. करनाल

Q28. Baisakhi in Haryana is mainly popular in _____.

- A. Hisar B. Kurukshetra
C. Pinjore D. Kaithal

Q28. हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से _____ में लोकप्रिय है।

- A. हिसार B. कुरुक्षेत्र
C. पिंजौर D. कैथल



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q29. 'Operation Durga' in Haryana is linked with _____.

- A. Safety of Men
B. Safety of Child
C. Safety of Women
D. Safety of Temple

Q29. हरियाणा में 'ऑपरेशन दुर्गा' का सम्बन्ध _____ से है।

- A. पुरुषों की सुरक्षा
B. बच्चों की सुरक्षा
C. महिलाओं की सुरक्षा
D. मंदिर की सुरक्षा

Q30. Pick the odd one out:

Swimming, Fishing, Driving, Diving

- A. Swimming
B. Driving
C. Diving
D. Fishing

Q30.

असंगत का चयन करें:

तैराकी, मत्स्यपालन, ड्राइविंग, गोताखोरी

- A. तैराकी
B. ड्राइविंग
C. गोताखोरी
D. मत्स्यपालन

Q31. Find the analogy.

Cdd : Dcc :: Fgg :

- A. Gff
B. fGG
C. GfG
D. gFg

Q31.

समान अक्षर-समूह ढूँढें।

Cdd : Dcc :: Fgg :

- A. Gff
B. fGG
C. GfG
D. gFg



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q32. What should come at the place of question mark (?) in the following number series?

4, 9, 16, 25, 36, ?

A. 42

B. 49

C. 45

D. 46

Q32.

निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या होना चाहिए?

4, 9, 16, 25, 36, ?

A. 42

B. 49

C. 45

D. 46

Q33. If GOLD is coded as EMJB, how to code COIN?

A. EQKP

B. NIOC

C. DQKP

D. AMGL

Q33. यदि एक कोड भाषा में GOLD को EMJB लिखा जाता है तो COIN को क्या लिखा जाएगा?

A. EQKP

B. NIOC

C. DQKP

D. AMGL

Q34. $\frac{x}{5} + 11 = \frac{1}{15}$. Find the value of x.

A. $-\frac{178}{6}$

B. $\frac{188}{9}$

C. $-\frac{164}{3}$

D. $\frac{156}{7}$

Q34. यदि $\frac{x}{5} + 11 = \frac{1}{15}$ हो तो x का मान ज्ञात करें।

A. $-\frac{178}{6}$

B. $\frac{188}{9}$

C. $-\frac{164}{3}$

D. $\frac{156}{7}$

Q35. The probability of a number is always _____.

A. Equal to 1

B. Greater than 1

C. Equal to 0

D. Between 0 and 1



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q35. एक संख्या की संभावना हमेशा _____ होती है।

A. 1 के बराबर

B. 1 से अधिक

C. 0 के बराबर

D. 0 और 1 के बीच

Q36. Varun got 85% in history test. If the test was out of 50 marks, what was his score in the test?

A. 42.50

B. 40.50

C. 39.50

D. 41.50

Q36. वरुण को इतिहास की परीक्षा में 85% अंक मिला। यदि परीक्षा 50 अंक की थी तो परीक्षा में उसे कुल कितना अंक मिला था?

A. 42.50

B. 40.50

C. 39.50

D. 41.50

Q37. A mixer costs Rs.7500. Charu buys it at a discount of 12%. She then sells the mixer for Rs.9800. How much profit did Charu make?

A. Rs.2600

B. Rs.3200

C. Rs.1400

D. Rs.2100

Q37. एक मिक्सर की लागत 7500 रुपये है। चारु इसे 12% की छूट पर खरीदती है। उसके बाद वह इसे 9800 रुपये में बेच देती है। चारु ने कितना लाभ कमाया?

A. 2600 रुपये

B. 3200 रुपये

C. 1400 रुपये

D. 2100 रुपये

Q38. _____ mirrors are usually used as rear-view mirrors in vehicles.

A. Concave

B. Convex

C. Plane

D. Flat

Q38. गाड़ियों में रियर-व्यू मिरर के रूप में आमतौर पर _____ दर्पणों का उपयोग किया जाता है।

A. अवतल

B. उत्तल

C. समतल

D. फ्लैट



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q39. The reaction in which acids react with bases to form salt and water is known as _____.

A. Displacement

B. Neutralization

C. Oxidation

D. Reduction

Q39. जिस प्रतिक्रिया में अम्ल, क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है उस प्रतिक्रिया को _____ के नाम से जाना जाता है।

A. विस्थापन

B. निष्प्रभावीकरण

C. ऑक्सीकरण

D. न्यूनीकरण

Q40. Green plants are also called as _____.

A. Autotrophs

B. Heterotrophs

C. Consumers

D. Scavengers

Q40. हरे पेड़-पौधों को _____ भी कहा जाता है।

A. स्वपोषी

B. विषमपोषी

C. उपभोक्ता

D. मेहतर

Q41. _____ is the synonym of "urgent".

A. Useful

B. Unavailable

C. Critical

D. Huge

Q42. _____ is the antonym of "scarcity".

A. Frightening

B. Plenty

C. Pleasant

D. Troubled

Q43. Identify the meaning of the idiom:

"A drop in the ocean".

A. A small part of what is needed

B. A small person

C. Only a small task is left to be completed

D. To fall deep in a trouble



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q44. The sentence given below may contain one or more mistakes. Identify the correct sentence.

"The cattle was grazing in Ramu's field when the jackal attacked."

A. The cattles was grazing in Ramu's field when the jackal attacked.

B. The cattle were grazing in Ramu's field when the jackal attacked.

C. The cattles were grazing in Ramu's field when the jackal attacked.

D. The cattle was grazing in Ramu's field when jackal attacked.

Q45. Complete the sentence by choosing the correct form of the verb given in brackets.

The thief _____ (catch) by the crowd.

A. were caught

B. were catch

C. were catching

D. was caught

Q46. नीचे लिखे शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइयें।

कुबेर

A. यक्षराज

B. यमराज

C. वासुदेव

D. रवितनया

Q47. नीचे लिखे गये शब्द का विपरीत (विलोम) शब्द बताइयें।

उदार

A. साकार

B. नर्मदिल

C. परोपकार

D. अनुदार

Q48. नीचे दिये गये मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ बतायें।

फूला न समाना

A. मोटा हो जाना

B. फूलों से लद जाना

C. बहुत प्रसन्न होना

D. कपड़े छोटे हो जाना



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q49. नीचे लिखे शब्द का एकवचन बनायें।

धेनुएँ

A. धेनु

B. धेनुः

C. धेनू

D. धन्नो

Q50. नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनायें।

ऋतु

A. ऋतुओ

B. ऋतुए

C. ऋतुएँ

D. ऋतुयें

Q51. Accounting of Fixed Asset is done as per _____.

A. AS 3

B. AS 5

C. AS 6

D. AS 10

Q51. फिक्स्ड असेट्स की अकाउंटिंग इनमें से किसके अनुसार की जाती है?

A. AS 3

B. AS 5

C. AS 6

D. AS 10

Q52. The deduction allowed by creditor to debtor with a view to encourage quick and prompt payment is _____.

A. Trade discount

B. Purchase return

C. Cash discount

D. Sales return

Q52. तुरन्त पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिटर द्वारा डेब्टर को जो छूट/कटौती दी जाती है उसे क्या कहते हैं?

A. ट्रेड डिस्काउंट

B. परचेज़ रिटर्न

C. कैश डिस्काउंट

D. सेल्स रिटर्न

Q53. A vehicle purchased for Rs.375000 whose depreciated book value is Rs. 150000 is sold for Rs 125000. What is the loss or profit to be accounted?

A. Profit of Rs.25000

B. Loss of Rs.225000

C. Loss of Rs.25000

D. Profit of Rs.250000



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q53. एक वाहन रु. 375000 का खरीदा गया था। उसकी डिप्रीशियेटेड बुक वैल्यू रु. 150000 है और उसे रु. 125000 में बेच दिया गया। खाते में कितना लाभ या हानि दिखाया जाएगा?

A. रु. 25000 का लाभ

B. रु. 225000 की हानि

C. रु. 25000 की हानि

D. रु. 250000 का लाभ

Q54. Which among the following is the correct one?

A. Asset + liability = capital

B. Capital + asset = liability

C. Liability - reserve = asset

D. Asset - liability = owner's fund

Q54. इनमें से कौन सा सही है?

A. असेट + लायबिलिटी = कैपिटल

B. कैपिटल + असेट = लायबिलिटी

C. लायबिलिटी - रिज़र्व = असेट

D. असेट - लायबिलिटी = स्वामी का फंड

Q55. Mr. X purchased goods costing Rs.30000 at trade discount 5% and cash discount 1%. Amount to be recorded in purchase account is _____.

A. Rs 29000

B. Rs 28500

C. Rs 28215

D. Rs 30000

Q55. श्रीमान X ने रु. 30000 मूल्य की वस्तुएं 5% के ट्रेड डिस्काउंट और 1% के कैश डिस्काउंट पर खरीदीं। परचेज़ अकाउंट में कितनी राशि चढ़ाई जाएगी?

A. रु. 29000

B. रु. 28500

C. रु. 28215

D. रु. 30000

Q56. In hire purchase system asset account is debited with _____ of the asset in the books of hire purchaser.

A. Down payment

B. Hire purchase price

C. Installment price

D. Cash price

Q56. हायर (Hire) परचेज़ सिस्टम में असेट अकाउंट को, हायर परचेज़र के खातों में असेट के _____ से डेबिट किया जाता है।

A. डाउन पेमेंट

B. हायर परचेज़ प्राइस

C. इंस्टालमेंट प्राइस

D. कैश प्राइस



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q57. Insurance paid on 1.9.2013 is Rs 12000. What is the amount to be transferred to prepaid insurance account for the year ended 2014?

- A. Rs.7000
B. Rs.12000
C. Rs.9000
D. Rs.5000

Q57. 1.9.2013 को चुकाई गई इश्योरेन्स रु. 12000 है। 2014 में समाप्त वर्ष के लिए प्रीपेड इश्योरेन्स अकाउंट में कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी?

- A. रु. 7000
B. रु. 12000
C. रु. 9000
D. रु. 5000

Q58. Using capitalization method, find out goodwill, given that capital employed is Rs.150000, reasonable rate of return 15%, profit for the year Rs.30000.

- A. Rs 50000
B. Rs.970000
C. Rs.800000
D. Rs.7500

Q58. कैपिटलाइज़ेशन विधि का उपयोग करते हुए गुडविल ज्ञात करें, दिया है कि काम में लाई गई कैपिटल (कैपिटल एम्प्लॉइड) रु. 150000 है, रीज़नेबल रेट ऑफ़ रिटर्न 15% है, वर्ष में प्राप्त लाभ रु. 30000 है।

- A. रु. 50000
B. रु. 970000
C. रु. 800000
D. रु. 7500

Q59. Capital at the beginning of the accounting year in case of single entry system is ascertained by preparing _____.

- A. Cash account
B. Bank account
C. Bank reconciliation statement
D. Opening statement of affairs

Q59. सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग वर्ष की शुरुआत में कैपिटल को _____ तैयार करके सुनिश्चित किया जाता है।

- A. कैश अकाउंट
B. बैंक अकाउंट
C. बैंक रीकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट
D. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ़ अफेयर्स

Q60. Inherent limitation of audit is _____.

- A. True and fair view
B. Confidentiality
C. Undetected fraud
D. Integrity



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q60. ऑडिट की एक सहज कमी अथवा सीमा _____ है।

A. सत्य व निष्पक्ष दृश्य

B. गोपनीयता

C. फ्रॉड का पता न कर पाना

D. पूर्णता व शुद्धता

Q61. _____ risk is unavoidable in nature and are bound to arise since accounts are susceptible.

A. Control

B. Financial

C. Detection

D. Inherent

Q61. _____ रिस्क की प्रकृति ऐसी होती है कि उनसे बचा नहीं जा सकता और इनका उठ खड़ा होना तय है क्योंकि अकाउंट्स अतिसंवेदनशील (ससेप्टिबल) होते हैं।

A. कंट्रोल

B. फाइनेंशियल

C. डिटेक्शन

D. इन्हेरेंट

Q62. _____ is an attitude that includes a questioning mind and critical assessment of audit evidence

A. Professional judgment

B. Professional skepticism

C. Professional ethics

D. Audit documentation

Q62. _____ एक ऐसा रवैया/स्वभाव है जिसमें सवाल करने वाला दिमाग और ऑडिट के सबूतों का समीक्षात्मक (critical) मूल्यांकन करना शामिल है।

A. व्यावसायिक निर्णय

B. व्यावसायिक संशयवाद

C. व्यावसायिक नैतिकता

D. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन

Q63. Responsibility of auditor is to _____.

A. Prepare financial statement

B. Express opinion on financial statement

C. Detect fraud in financial statement

D. Safeguard of assets

Q63. इनमें से क्या ऑडिटर की ज़िम्मेदारी है?

A. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना

B. फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर राय प्रकट करना

C. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड का पता लगाना

D. असेट्स की सुरक्षा करना



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q64. Audit materiality is inversely proportional to _____.

- A. Audit risk
- B. Detection risk
- C. Control risk
- D. Inherent risk

Q64. ऑडिट मैटीरियैलिटी (ऑडिट तात्विकता) किसके व्युत्क्रमानुपाती (इनवर्सली प्रपोर्शनल) है?

- A. ऑडिट रिस्क
- B. डिटेक्शन रिस्क
- C. कंट्रोल रिस्क
- D. इन्हेरेंट रिस्क

Q65. _____ is audit or verification of transactions or activities of an organization continuously as the transaction takes place.

- A. Statutory audit
- B. Tax audit
- C. Concurrent audit
- D. Cost audit

Q65. _____ निरंतर किसी संगठन के लेनदेन या क्रियाकलापों (ऐक्टिविटीज़) का उनके होने के साथ-साथ ही ऑडिट या वैरिफिकेशन करने को कहते हैं।

- A. स्टैच्युटरी (statutory) ऑडिट
- B. टैक्स ऑडिट
- C. कॉन्करेंट (concurrent) ऑडिट
- D. कॉस्ट ऑडिट

Q66. Identify nostro account from the following :

- A. Bank of America holding super account with SBI in Delhi
- B. SBI holding US \$ in America with Bank of America
- C. SBI holding account in other banks in India
- D. SBI savings account

Q66. निम्नांकित में से नॉस्ट्रो अकाउंट पहचानें :

- A. SBI दिल्ली में, बैंक ऑफ अमेरिका का सुपर अकाउंट
- B. अमेरिका के बैंक ऑफ अमेरिका में SBI के जमा US\$
- C. SBI के भारत के अन्य बैंकों में अकाउंट
- D. SBI सेविंग्स अकाउंट

Q67. _____ are the price bands that set the upper and lower limit within which a stock can fluctuate in a particular day.

- A. Unexpired risk reserve
- B. Volatility margin
- C. Mark to market margin
- D. Circuit filters



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q67. _____ वो मूल्य बैंड हैं जो उन ऊपरी व निचली सीमाओं को तय करते हैं जिनके बीच किसी स्टॉक का प्राइस किसी दिन विशेष में ऊपर-नीचे जा सकता है।

- A. अनएक्पायर्ड रिस्क रिज़र्व
B. वॉलेटिलिटी (volatility) मार्जिन
C. मार्क टू मार्केट मार्जिन
D. सर्किट फिल्टर्स

Q68. Find out the current ratio:

Sundry debtors Rs. 15000
Short term investments Rs. 2000
Stocks Rs. 3000
Bills payable Rs. 5000
Expenses payable Rs. 7000

- A. 1.75:1
B. 1.68:1
C. 1.79:1
D. 1.66:1

Q68.
करंट रेशियो ज्ञात करें:

संड्री डेब्टर्स रु. 15000
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स रु. 2000
स्टॉक्स रु. 3000
बिल्स पेयेबिल रु. 5000
एक्सपेंसिज पेयेबिल रु. 7000

- A. 1.75:1
B. 1.68:1
C. 1.79:1
D. 1.66:1

Q69. Increase in working capital shows _____

- A. Application of fund
B. Source of fund
C. Loss from operation
D. Fund from operation

Q69. वर्किंग कैपिटल में होने वाली बढ़त क्या दिखाती है _____

- A. फंड का उपयोग में लाया जाना (ऐप्लीकेशन ऑफ़ फंड)
B. फंड का सोर्स
C. ऑपरेशन से हानि
D. ऑपरेशन से फंड



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q70. _____ is a technique of costing which differentiates between fixed costs and variable costs and charging only variable costs to products.

- A. Absorption costing
B. Standard costing
C. Batch costing
D. Marginal costing

Q70. _____ कॉस्टिंग की एक तकनीक है जो फिक्स्ड कॉस्ट्स और वैरियेबिल कॉस्ट्स में अन्तर करती है और प्रोडक्ट्स पर केवल वैरियेबिल कॉस्ट्स ही चार्ज करती है।

- A. ऐब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग
B. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग
C. बैच कॉस्टिंग
D. मार्जिनल कॉस्टिंग

Q71. Break Even Point (BEP) is _____.

- A. Fixed expenses / contribution per unit
B. PV ratio / contribution per unit
C. Profit / contribution per unit
D. Variable expenses / contribution per unit

Q71. ब्रेक ईविन पॉइंट (BEP) क्या होता है?

- A. फिक्स्ड ऐक्सपेंसिज़ / कौंट्रीब्यूशन प्रति यूनिट
B. PV रेशियो / कौंट्रीब्यूशन प्रति यूनिट
C. लाभ / कौंट्रीब्यूशन प्रति यूनिट
D. वैरियेबिल ऐक्सपेंसिज़ / कौंट्रीब्यूशन प्रति यूनिट

Q72. What will margin of safety be at profit of Rs. 5000 when contribution and sales are Rs. 8000 and Rs. 20000 respectively will be _____.

- A. Rs.12500
B. Rs.10000
C. Rs.11000
D. Rs.11500

Q72. जब कौंट्रीब्यूशन और सेल्स क्रमशः रु. 8000 और रु. 20000 हों तो रु. 5000 के लाभ पर मार्जिन ऑफ़ सेफ़्टी क्या होगा?

- A. रु. 12500
B. रु. 10000
C. रु. 11000
D. रु. 11500

Q73. _____ is a technique which involves identification of cost with each cost driving activity and making it as the basis for apportionment/assignment of costs over different cost objects/jobs/products/customers/services.

- A. Job costing
B. ABC Analysis
C. Process costing
D. Product cost



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q73. _____ एक तकनीक है जिसमें हरेक कॉस्ट ड्राइविंग ऐक्टिविटी के लिए कॉस्ट की पहचान की जाती है और उसे विभिन्न कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स/जॉब्स/प्रोडक्ट्स/कस्टमर्स/सर्विसिज पर कॉस्ट्स का अपॉइंटमेंट/असाइनमेंट करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

A. जॉब कॉस्टिंग

B. ABC ऐनालिसिस

C. प्रॉसेस कॉस्टिंग

D. प्रोडक्ट कॉस्ट

Q74. _____ is a geometrical progression which reveals the steadily decreasing costs for the accomplishment of a given repetitive operation, as the identical operation is increasingly repeated.

A. Learning curve

B. Simulation

C. Linear programming

D. Assignment

Q74. जब किसी एकसमान ऑपरेशन का दोहराव बढ़ता जा रहा होता है तो _____ एक गुणोत्तर श्रेणी (जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन) होती है जो उस बारंबार होने वाले ऑपरेशन को पूरा करने के लिए लगातार घटती जा रही कॉस्ट्स का खुलासा करती है।

A. लर्निंग कर्व

B. सिम्युलेशन

C. लीनियर प्रोग्रामिंग

D. असाइनमेंट

Q75. EOQ = 120 units carrying cost per unit per annum = Rs. 20 buying or ordering cost per order = Rs. 40 Annual requirement of raw material is _____.

A. 1296 units

B. 3600 units

C. 60 units

D. 4600 units

Q75. EOQ = 120 यूनिट्स, कैरिंग (carrying) कॉस्ट्स प्रति यूनिट प्रति वर्ष = ₹. 20, खरीद अथवा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्रति ऑर्डर = ₹. 40, कच्चे माल के लिए सालाना आवश्यकता _____ होगी।

A. 1296 यूनिट्स

B. 3600 यूनिट्स

C. 60 यूनिट्स

D. 4600 यूनिट्स

Q76. _____ indicates the level of operation below which it is not justifiable to pursue production.

A. Breakeven point

B. Indifference point

C. Shutdown point

D. Difference point



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q76. _____ ऑपरेशन के उस स्तर का संकेत देता है जिसके नीचे, प्रोडक्शन जारी रखना उचित नहीं रहता (फ़ायदे का सौदा नहीं रहता)।

- A. ब्रेकईविन पॉइंट
- B. इन्डिफ़रेंस पॉइंट
- C. शटडाउन पॉइंट
- D. डिफ़रेंस पॉइंट

Q77. Virtual Access Method (VAM) is used in _____.

- A. Simulation
- B. Transportation
- C. Time series analysis
- D. Network analysis

Q77. वर्चुअल ऐक्सेस मैथड (VAM) का उपयोग किसमें किया जाता है?

- A. सिम्युलेशन
- B. ट्रांसपोर्टेशन
- C. टाइम सीरीज़ ऐनालिसिस
- D. नैटवर्क ऐनालिसिस

Q78. _____ is the price which one unit of firm charges for a product supplied or service rendered to another sub unit of same firm.

- A. Marginal pricing
- B. Cost plus pricing
- C. Transfer pricing
- D. Contract pricing

Q78. _____ वह प्राइस है जो किसी फ़र्म की एक यूनिट, उसी फ़र्म की किसी सब-यूनिट को पहुँचाए गए प्रोडक्ट या फिर प्रदान की गई सर्विस के लिए चार्ज करती है।

- A. मार्जिनल प्राइसिंग
- B. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग
- C. ट्रांसफर प्राइसिंग
- D. कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग

Q79. _____ is a budget which by recognizing the difference between fixed, semi variable and variable costs is designed to change in relation to level of activity.

- A. Flexible budgeting
- B. Functional budgeting
- C. Fixed budgeting
- D. Master budgeting

Q79. _____ एक ऐसा बजट होता है जिसे फ़िक्स्ड, सेमी-वैरियेबिल और वैरियेबिल कॉस्ट्स के बीच के अन्तर को शामिल करते हुए, ऐक्टिविटी के लेवल के साथ-साथ बदलने के लिए डिजाइन किया जाता है।

- A. फ़्लैक्सिबिल बजटिंग
- B. फ़ंक्शनल बजटिंग
- C. फ़िक्स्ड बजटिंग
- D. मास्टर बजटिंग



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q80. Trend analysis is significant for _____.

- A. Profit planning
- B. Capital budgeting
- C. Working capital management
- D. Forecasting and budgeting

Q80. ट्रेंड (Trend) एनालिसिस किसके लिए महत्वपूर्ण है?

- A. लाभ की प्लानिंग के लिए
- B. कैपिटल बजटिंग के लिए
- C. वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए
- D. पूर्वानुमान (फोरकास्टिंग) और बजटिंग के लिए

Q81. Responsibility centre is _____.

- A. Cost centre
- B. Production centre
- C. Revenue centre
- D. Profit centre

Q81. रैस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है?

- A. कॉस्ट सेंटर
- B. प्रोडक्शन सेंटर
- C. रिवेन्यू सेंटर
- D. लाभ सेंटर

Q82. Costs of resources consumed by activities are grouped into _____.

- A. Cost pools
- B. Cost object
- C. Cost driver
- D. Cost resource

Q82. ऐक्टिविटीज द्वारा इस्तेमाल किए गए रिसोर्सों की कॉस्ट्स को किस ग्रुप में रखा जाता है?

- A. कॉस्ट पूल्स
- B. कॉस्ट ऑब्जेक्ट
- C. कॉस्ट ड्राइवर
- D. कॉस्ट रिसोर्स

Q83. A company, other than an Indian company, would be a resident in India for FY 2012-13, if during that year its control and management is situated _____.

- A. Partly in India
- B. Wholly in India
- C. Wholly or partly in India
- D. Any Place in India other than Kerala

Q83. एक कम्पनी, जो कि भारतीय कम्पनी न हो, को वित्तवर्ष 2012-13 के लिए भारत का निवासी (रैज़िडेंट इन इंडिया) माना जाएगा अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट _____ स्थित हो।

- A. आंशिक रूप से भारत में
- B. पूरी तरह से भारत में
- C. पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से भारत में
- D. केरल के अलावा भारत में किसी भी स्थान में



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q84. Mr. A incurred short term capital loss of Rs.10000 on sale of shares through the national stock exchange. Such loss can be set off against _____.

- A. Both short term capital gain and long term capital gain B. Only against short term capital gain
C. Only against long term capital gain D. Any head of income

Q84. श्रीमान A ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए शेयर बेचने पर रु. 10000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उठाया। इस तरह के लॉस (हानि) को किसके समक्ष (अगेंस्ट) सेट ऑफ़ किया जा सकता है?

- A. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉंग टर्म कैपिटल गेन, दोनों के समक्ष B. केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के समक्ष
C. केवल लॉंग टर्म कैपिटल गेन के समक्ष D. इनकम के किसी भी हेड के समक्ष

Q85. Where an assessee has two house properties for self occupation, the benefit of nil annual value will be available in respect of _____.

- A. Both properties B. The property which acquired/constructed first
C. Any one of the properties at the option of assessee D. Both properties will be taxed

Q85. जहाँ किसी कर निर्धारिती (असेसी) के निजी वास (सैल्फ ऑक्युपेशन) के लिए दो हाउस प्रॉपर्टीज़ हों तो निल ऐनुअल वैल्यू का लाभ किसके सम्बन्ध में मिलेगा?

- A. दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए B. उस प्रॉपर्टी के लिए जिसे पहले खरीदा या बनवाया गया था
C. दोनों प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक के लिए जिसका चयन कर-निर्धारिती (असेसी) करता है D. दोनों प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स लिया जाएगा

Q86. Where there is a decision to increase the D.A in March 2012 with retrospective effect from 1.4.2009 and the increased D.A is received in April, 2012, the increase is taxable _____.

- A. In the previous year 2011-12 B. In the previous year 2012-13
C. In the respective year to which it relate D. In the year 2010-2011

Q86. जहाँ मार्च 2012 में D.A. में बढ़ोत्तरी करने का फैसला 1.4.2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव (रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ैक्ट) के साथ लिया गया हो और बढ़ा हुआ D.A. अप्रैल, 2012 में प्राप्त हुआ हो तो यह बढ़ोत्तरी _____ टैक्सेबिल होगी।

- A. पिछले वर्ष 2011-12 में B. पिछले वर्ष 2012-13 में
C. उस वर्ष में जिससे यह सम्बन्ध रखती है D. वर्ष 2010-11 में



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q87. Income from letting of machinery, plant and furniture is chargeable to _____.

- A. Always to profits and gains of business and profession
B. Always under income from other source
C. Income from other source if not chargeable under the head profits and gains from business and profession
D. Under house property

Q87. मशीनरी, प्लांट और फ़र्नीचर को किराए पर देने से हुई इनकम किसमें चार्जबिल है?

- A. हमेशा ही प्रॉफ़िट्स एंड गेन्स (gains) ऑफ बिजनेस एंड प्रोफ़ेशन में
B. हमेशा ही इनकम फ़्रॉम अदर सोर्स में
C. इनकम फ़्रॉम अदर सोर्स में, अगर प्रॉफ़िट्स एंड गेन्स (gains) फ़्रॉम बिजनेस एंड प्रोफ़ेशन के हैड में चार्जबिल नहीं हो
D. हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत

Q88. Which one of the following best explains 'Money'?

- A. It is a medium for producing capital goods.
B. It is a means for redistributing wealth among people.
C. It is a common denominator for measuring value.
D. It is a mechanism for resource allocation.

Q88. इनमें से कौन सा विकल्प 'धन' की सर्वोत्तम व्याख्या देता है?

- A. यह कैपिटल गुड्स का उत्पादन करने के लिए एक माध्यम है।
B. यह लोगों के बीच संपदा (वैल्यू) का पुनः वितरण करने का साधन है।
C. यह मूल्य (वैल्यू) को मापने का सर्वनिष्ठ हर अथवा मूल्य आंकने वाला (कॉमन डिनामिनेटर) है।
D. यह रिसोर्स को अलोकेट करने की कार्यविधि है।

Q89. Convertibility to the Indian rupee implies that _____.

- A. The Indian Rupee can be exchanged by the authorized dealers for the purpose of education.
B. The Indian Rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trade in goods and services.
C. The Indian Rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of financial assets.
D. The Indian Rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of agriculture.



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q89. भारतीय रुपये में कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है _____ ।

- A. ऐजुकेशन के उद्देश्य से अधिकृत डीलर भारतीय रुपये का विनिमय (एक्सचेंज) कर सकते हैं।
B. गुड्स और सर्विसिज में कारोबार करने के उद्देश्य से भारतीय रुपये का विनिमय (एक्सचेंज) किसी भी प्रमुख मुद्रा (मेज़र करेंसी) के साथ किया जा सकता है।
C. फाइनेंशियल असेट्स के उद्देश्य से भारतीय रुपये का विनिमय (एक्सचेंज) किसी भी प्रमुख मुद्रा (मेज़र करेंसी) के साथ किया जा सकता है।
D. खेती के उद्देश्य से भारतीय रुपये का विनिमय (एक्सचेंज) किसी भी प्रमुख मुद्रा (मेज़र करेंसी) के साथ किया जा सकता है।

Q90. In the context of balance of payments portfolio investment relates to _____.

- A. Takeover of foreign companies.
B. Purchase of shares in foreign companies.
C. Purchase of real estate in foreign countries.
D. Private remittance to foreign countries

Q90. पेमेंट्स के बकाया के संदर्भ में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किससे सम्बन्धित है?

- A. विदेशी कम्पनियों का अधिग्रहण (टेकओवर)।
B. विदेशी कम्पनियों में शेयरों की खरीद।
C. विदेशों में अचल सम्पत्ति (रियल एस्टेट) की खरीद।
D. विदेशों को निजी/गोपनीय धनप्रेषण (रैमिटेंस)।

Q91. Which one of the following is considered as non debt creating foreign investment inflow?

- A. Foreign direct investment
B. External assistance
C. Borrowing from IMF
D. Commercial borrowings

Q91. निम्नांकित में से किसे नॉन डैब्ट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो (ऋण असृजक विदेशी निवेश अंतर्वाह) माना जाता है?

- A. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट)
B. बाह्य सहायता (एक्सटर्नल असिस्टेंस)
C. IMF से उधार लेना
D. वाणिज्यिक उधारियाँ (कमर्शियल बॉरोइंग्स)

Q92. The growth process that is sustainable and yields broad-based benefits and ensures equality of opportunity for all is termed as _____.

- A. Faster growth
B. Inclusive growth
C. Balanced growth
D. Sustained growth

Q92. वह ग्रोथ प्रॉसेस जो टिकाऊ होती है और विस्तृत-आधारी (ब्रॉड-बेस्ड) फ़ायदे देती है और सभी के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करती है, क्या कहलाती है?

- A. तीव्रतर विकास (फास्टर ग्रोथ)
B. समावेशी विकास (इन्क्लूसिव ग्रोथ)
C. संतुलित विकास (बैलेंस्ड ग्रोथ)
D. टिकाऊ विकास (सस्टेंड ग्रोथ)



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q93. Credit will contract when _____.

- A. Bank rate is lowered
- B. Open market operations policy of buying government bond is adopted
- C. Reserve requirement ratio is lowered
- D. Bank rate is raised**

Q93. क्रेडिट सिकुड़ता है जब _____

- A. बैंक रेट घटाया जाता है
- B. सरकारी बॉन्ड खरीदने की ओपन मार्केट ऑपरेशन्स पॉलिसी अपनाई जाती है
- C. रिज़र्व रिक्वायरमेंट रेशियो को घटाया जाता है
- D. बैंक रेट बढ़ाया जाता है**

Q94. Which one of the following situations occur during the period when borrowers and lenders expect inflation?

- A. The nominal rate of interest exceeds real rate of interest.**
- B. The real rate of interest exceeds the nominal rate of interest.
- C. The nominal rate of interest equals the real rate of interest.
- D. Nominal and real rate of interest become zero.

Q94. जब उधार लेने वाले और देने वाले महंगाई/मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) की उम्मीद रखते हैं तो इनमें से कौन सी परिस्थिति जन्म लेती है?

- A. ब्याज का नॉमिनल रेट, ब्याज के रियल रेट से अधिक हो जाता है।**
- B. ब्याज का रियल रेट, ब्याज के नॉमिनल रेट से अधिक हो जाता है।
- C. ब्याज का नॉमिनल रेट, ब्याज के रियल रेट के बराबर हो जाता है।
- D. ब्याज के नॉमिनल और रियल रेट शून्य हो जाते हैं।

Q95. Which one of the following tax is levied by Central Government?

- A. Taxes on mineral rights
- B. Taxes on consumption and sale of electricity
- C. Taxes on capital gains**
- D. Tax on motor vehicles

Q95. इनमें से कौन सा टैक्स केन्द्र सरकार द्वारा वसूला जाता है?

- A. मिनरल राइट्स पर टैक्स
- B. बिजली के इस्तेमाल और बिक्री पर टैक्स
- C. कैपिटल गेन्स (gains) पर टैक्स**
- D. मोटर वाहनों पर टैक्स



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session

Q96. Lead Bank scheme is designed to _____.

- A. Regulate the use of credit.
- B. Control the activities of non-banking financial institutions.
- C. Help the weaker sections in a particular district.
- D. Have a more concentrated effort of a bank in a particular district.

Q96. लीड बैंक स्कीम को किसलिए डिजाइन किया गया है?

- A. क्रेडिट के इस्तेमाल को नियमित करने के लिए।
- B. गैर-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की ऐक्टिविटीज़ का नियन्त्रण करने के लिए।
- C. किसी जिला विशेष में कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए।
- D. किसी जिला विशेष में बैंक की अधिक केन्द्रित कोशिशों के लिए।

Q97. Which method of costing is best suited for interior decorator?

- A. Job costing
- B. Contract costing
- C. Process costing
- D. Operating costing

Q97. एक इंटीरियर डेकोरेटर के लिए इनमें से कौन सा लागत-निर्धारण सबसे उपयुक्त होगा?

- A. जॉब लागत-निर्धारण
- B. संविदा लागत-निर्धारण
- C. प्रक्रिया लागत-निर्धारण
- D. प्रचालनीय लागत-निर्धारण

Q98. Which of the following is an example of variable cost?

- A. Property taxes
- B. Interest on capital
- C. Direct material cost
- D. Depreciation of machinery

Q98. इनमें से कौन सा विकल्प परिवर्ती लागत का उदाहरण है?

- A. संपत्ति कर
- B. पूँजी पर ब्याज
- C. प्रत्यक्ष सामग्री लागत
- D. मशीनरी का मूल्यहास

Q99. Which of the following is a planned result than an enterprise aims to attain?

- A. Forecast
- B. Budget
- C. Marginal cost
- D. Production cost



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Morning Session**

Q99. निम्नलिखित में क्या प्राप्त करने के लिए उद्यम के उद्देश्यों की तुलना में एक योजित परिणाम है?

- A. पूर्वानुमान
- B. बजट
- C. सीमान्तक लागत
- D. उत्पादन लागत

Q100. Which type of audit is more suitable where there is no satisfactory system of internal check?

- A. Continuous audit
- B. Periodical audit
- C. Balance sheet audit
- D. Management audit

Q100. किस प्रकार की लेखा परीक्षा अधिक उपयुक्त है जहाँ आंतरिक जाँच की कोई संतोषजनक प्रणाली मौजूद नहीं है?

- A. सतत् लेखा परीक्षा
- B. आवधिक लेखा परीक्षा
- C. तुलन-पत्र लेखा परीक्षा
- D. प्रबंधन लेखा परीक्षा



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q1. Swami Dayanand Saraswati founded _____.

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| A. Brahmo Samaj | B. Indian National Congress |
| C. Arya Samaj | D. Indian National Army |

Q1. स्वामी दयानंद सरस्वती ने _____ की स्थापना की।

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| A. ब्रह्म समाज | B. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| C. आर्य समाज | D. भारतीय राष्ट्रीय सेना |

Q2. _____ won the 2017 Champions Trophy cricket tournament.

- | | |
|--------------------|-----------------|
| A. India | B. Australia |
| C. Pakistan | D. South Africa |

Q2. 2017 चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में _____ की जीत हुई।

- | | |
|---------------------|-------------------|
| A. भारत | B. ऑस्ट्रेलिया |
| C. पाकिस्तान | D. दक्षिण अफ्रीका |

Q3. Kaziranga National Park in Assam is a sanctuary for _____.

- | | |
|----------------------|-------------|
| A. Rhinoceros | B. Tiger |
| C. Lion | D. Elephant |

Q3. असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान _____ के लिए एक अभयारण्य है।

- | | |
|-----------------|---------|
| A. गैंडा | B. बाघ |
| C. शेर | D. हाथी |

Q4. Who is the current Union Minister of Finance?

- | | |
|------------------------|-------------------|
| A. Rajnath Singh | B. Smriti Irani |
| C. Arun Jaitley | D. Venkaiah Naidu |

Q4. वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है?

- | | |
|----------------------|------------------|
| A. राजनाथ सिंह | B. स्मृति ईरानी |
| C. अरुण जेटली | D. वेंकैया नायडू |



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q5. Rakhigarhi, which is considered to be the origin of Harappa civilization, is in _____ district of Haryana.

- A. Panipat
C. Sirsa
B. Hisar
D. Faridabad

Q5. राखीगढ़ी, जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के _____ जिले में स्थित है।

- A. पानीपत
C. सिरसा
B. हिसार
D. फरीदाबाद

Q6. Under which Mughal ruler did Haryana come under the control of the British?

- A. Akbar
C. Shah Alam
B. Bahadur Shah
D. Wajid Ali

Q6. किस मुगल शासक के शासन काल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था?

- A. अकबर
C. शाह आलम
B. बहादुर शाह
D. वाजिद अली

Q7. Ravindra Singh Bisht, the famous archaeologist, worked in Banawali, Hisar in the _____ civilization.

- A. Gangetic Plain
C. Vedic period
B. Indus Valley
D. Persian

Q7. प्रसिद्ध पुरातत्वविद् रवींद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में _____ सभ्यता पर काम किया।

- A. गंगा का मैदान
C. वैदिक काल
B. सिंधु घाटी
D. फ़ारसी

Q8. The Indus Valley Civilisation is a _____ civilisation.

- A. Bronze Age
C. Stone Age
B. Iron Age
D. Dark Age

Q8. सिंधु घाटी सभ्यता एक _____ सभ्यता है।

- A. कांस्य युग
C. पाषाण युग
B. लौह युग
D. अंधकार युग



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q9. Mrs. Sushma Swaraj, the current Minister of External Affairs of India, was born in _____.

A. Ambala Cantt

B. Faridabad

C. Rohtak

D. Rewari

Q9. वर्तमान भारत की विदेश मंत्री, श्रीमती सुष्मा स्वराज का जन्म _____ में हुआ था।

A. अम्बाला कैंट

B. फरीदाबाद

C. रोहतक

D. रेवाड़ी

Q10. Who won the first ever individual Olympic gold medal for India?

A. Sakshi Malik

B. Geeta Phogat

C. Vijendra Singh

D. Abhinav Bindra

Q10. किसने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता?

A. साक्षी मलिक

B. गीता फोगट

C. विजेन्द्र सिंह

D. अभिनव बिंद्रा

Q11. According to Government reports, _____ percent of total inhabited villages of Haryana are electrified. (Rural Electrification Report as on 30.06.2017)

A. 90

B. 100

C. 75

D. 82

Q11. सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा के कुल बसे हुए गाँवों में से _____ प्रतिशत गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है। (30.06.2017 तक की ग्रामीण विद्युतीकरण रिपोर्ट)

A. 90

B. 100

C. 75

D. 82

Q12. What is the new name of Ballabgarh?

A. Balrampradesh

B. Balramgarh

C. Balrampur

D. Balramganj

Q12. बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है?

A. बलरामप्रदेश

B. बलरामगढ़

C. बलरामपुर

D. बलरामगंज



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q13. Union Government of India selected _____ to be developed as the First Smart City of India.

- A. Rohtak
B. Rewari
C. Faridabad
D. Gurugram

Q13. भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए _____ का चयन किया है।

- A. रोहतक
B. रेवाड़ी
C. फरीदाबाद
D. गुरुग्राम

Q14. Which is the national highway between Ambala and Haridwar?

- A. NH 8
B. NH 72
C. NH70
D. NH 71

Q14. अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है?

- A. NH 8
B. NH 72
C. NH70
D. NH 71

Q15. Who wrote 'Jhadufiri', the first novel written in Haryanvi language?

- A. Surender Sharma
B. Rajaram Shastri
C. Deep Chand Bahman
D. Surdas

Q15. हरियाणवी भाषा में लिखे गए प्रथम उपन्यास 'झाड़ूफिरी' की रचना किसने की थी?

- A. सुरेंद्र शर्मा
B. राजाराम शास्त्री
C. दीप चंद बहमन
D. सूरदास

Q16. Several words in Haryanvi are similar to words in _____ language.

- A. German
B. Finnish
C. Spanish
D. French

Q16. हरियाणवी के कई शब्द _____ भाषा के शब्दों के समान हैं।

- A. जर्मन
B. फिनिश
C. स्पेनिश
D. फ्रेंच



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q17. Which of the following is NOT an autobiography of Kapil Dev?

- A. By God's Decree
B. Cricket my style
C. Straight from the Heart
D. Sunny Days

Q17. निम्नलिखित में से कौन सी किताब, कपिल देव की एक आत्मजीवनी नहीं है?

- A. बाई गॉड्स डिक्री
B. क्रिकेट माई स्टाइल
C. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट
D. सन्नी डेज

Q18. Surender Sharma is a very famous Haryanvi _____.

- A. Folklore artist
B. Satirist
C. Painter
D. Sculptor

Q18. सुरेंद्र शर्मा एक बहुत प्रसिद्ध हरियाणवी _____ है।

- A. लोकगीत कलाकार
B. व्यंगकार
C. चित्रकार
D. मूर्तिकार

Q19. Which one of the following rivers does NOT flow through Haryana?

- A. Ghaggar
B. Indori
C. Dohan
D. Beas

Q19. निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी, हरियाणा से होकर नहीं बहती है?

- A. घग्गर
B. इन्दोरी
C. दोहन
D. ब्यास

Q20. The _____ district receives the maximum rainfall among all districts of Haryana.

- A. Kurukshetra
B. Faridabad
C. Ambala
D. Hisar

Q20. _____ जिले में हरियाणा के सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा होती है।

- A. कुरुक्षेत्र
B. फरीदाबाद
C. अम्बाला
D. हिसार



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q21. Dharuhera Industrial Town, the fastest growing Industrial Area is in _____ District of Haryana.

- A. Rewari B. Gurugram
C. Hisar D. Faridabad

Q21. धारुहेरा इंडस्ट्रियल टाउन, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र, हरियाणा के _____ जिले में है।

- A. रेवाड़ी B. गुरुग्राम
C. हिसार D. फरीदाबाद

Q22. Haryana does NOT share its boundaries with _____.

- A. Delhi B. Punjab
C. Uttar Pradesh D. Gujarat

Q22. हरियाणा की सीमा _____ की सीमा से सटी हुई नहीं है।

- A. दिल्ली B. पंजाब
C. उत्तर प्रदेश D. गुजरात

Q23. Total area of Haryana is _____square kilometres.

- A. 44,312 B. 44,212
C. 55,412 D. 33,612

Q23. हरियाणा का कुल क्षेत्रफल _____ वर्ग किलोमीटर है।

- A. 44,312 B. 44,212
C. 55,412 D. 33,612

Q24. There are _____ districts in Haryana state.

- A. 22 B. 21
C. 20 D. 14

Q24. हरियाणा राज्य में _____ जिले हैं।

- A. 22 B. 21
C. 20 D. 14



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q25. Where is the high court of Haryana located?

- A. Faridabad B. Gurugram
C. Chandigarh D. Panchkula

Q25. हरियाणा की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?

- A. फरीदाबाद B. गुरुग्राम
C. चंडीगढ़ D. पंचकुला

Q26. Sahibi river finally drains into the _____.

- A. Arabian sea B. Sutlej
C. Beas D. Yamuna

Q26. साहिबी नदी अंत में _____ गिरती है।

- A. अरब सागर B. सतलज
C. ब्यास D. यमुना

Q27. The Chinkara Breeding centre is in _____.

- A. Bhiwani B. Kurukshetra
C. Sirsa D. Kaithal

Q27. चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर _____ में है।

- A. भिवानी B. कुरुक्षेत्र
C. सिरसा D. कैथल

Q28. Fatehabad is famous for _____.

- A. Watches B. Wool
C. Cotton Threads D. Jute

Q28. फतेहाबाद _____ के लिए प्रसिद्ध है।

- A. घड़ियाँ B. ऊन
C. सूती धागे D. जूट



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q29. Which Haryana city is called 'Power house of boxing'?

- A. Rohtak
C. Hisar
B. Bhiwani
D. Rewari

Q29. किस हरियाणा शहर को "बॉक्सिंग का पावर हाउस" कहा जाता है?

- A. रोहतक
C. हिसार
B. भिवानी
D. रेवाड़ी

Q30. Pick the odd one out:

Nose, Mouth, Eye, Ear, Skin

- A. Nose
C. Ear
B. Skin
D. Eye

Q30. असंगत का चयन करें:

नाक, मुँह, आँख, कान, त्वचा

- A. नाक
C. कान
B. त्वचा
D. आँख

Q31. Complete the analogy.

ABD:FGI :: KLN:

- A. NPQ
C. UVX
B. SUW
D. LMN

Q31. समानता को पूरा करें। .

ABD:FGI :: KLN:

- A. NPQ
C. UVX
B. SUW
D. LMN

Q32. What should come at the place of question mark (?) in the following number series?

4, 7, 12, 19, 28, 39, 52, ?

- A. 58
C. 67
B. 59
D. 72



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q32. निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या होना चाहिए?

4, 7, 12, 19, 28, 39, 52, ?

A. 58

B. 59

C. 67

D. 72

Q33. In a certain code, COURSE is written as 568943 and ROAR is written as 9629. How is RACE written in that code?

A. 8932

B. 5894

C. 9253

D. 4329

Q33. एक निश्चित कोड में, COURSE को 568943 और ROAR को 9629 लिखा जाता है। उस कोड में RACE को क्या लिखा जाएगा?

A. 8932

B. 5894

C. 9253

D. 4329

Q34. $35 - [3 + \{26 - (9 - 6)\}] = \underline{\hspace{2cm}}$

A. 11

B. 9

C. 10

D. 8

Q34. $35 - [3 + \{26 - (9 - 6)\}] = \underline{\hspace{2cm}}$

A. 11

B. 9

C. 10

D. 8

Q35. There are 50 fruits in a basket out of which 9 are apples. If you pick up a fruit from the basket, what is the probability of picking an apple?

A. 9/50

B. 50/9

C. 1/50

D. 8/50

Q35. एक टोकरी में 50 फल हैं जिनमें से 9 सेब हैं। यदि आप टोकरी से एक फल उठाते हैं, तो एक सेब को चुनने की क्या संभावना है?

A. 9/50

B. 50/9

C. 1/50

D. 8/50

Q36. $(60\% \text{ of } 360) - (360\% \text{ of } 60) = \underline{\hspace{2cm}}$

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q36. (360 का 60%) - (60 का 360%) = _____

- A. 1
B. 2
C. 0
D. 3

Q37. Rati purchased 500 glasses at the rate of Rs.90 per glass. She sold the glasses at Rs.120 each. What was her profit/loss percentage?

- A. 32.50%
B. 33.33%
C. 35.25%
D. 34.90%

Q37. रती ने 90 रुपये प्रति गिलास की दर से 500 गिलास खरीदा। उसने प्रत्येक गिलास को 120 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ / हानि प्रतिशत कितना था?

- A. 32.50%
B. 33.33%
C. 35.25%
D. 34.90%

Q38. The SI unit of electric charge is _____.

- A. Ampere
B. Volt
C. Coulomb
D. Watt

Q38. विद्युत आवेश की एसआई इकाई _____ है।

- A. एम्पेयर
B. वोल्ट
C. कूलम्ब
D. वाट

Q39. _____ is an example of a non-metal.

- A. Sulphur
B. Potassium
C. Magnesium
D. Iron

Q39. _____, गैर-धातु का एक उदाहरण है।

- A. सल्फर
B. पोटैशियम
C. मैगनीशियम
D. लोहा

Q40. The _____ in human digestive system is commonly known as the 'food pipe'.

- A. Tongue
B. Oesophagus
C. Stomach
D. Throat



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q40. मानव पाचन तंत्र में _____ को आमतौर पर भोजन पाइप के नाम से जाना जाता है।

A. जीभ

B. ग्रासनली

C. पेट

D. गला

Q41. _____ is the synonym of "peer".

A. Pressure

B. Fruit

C. Colleague

D. Look into

Q42. _____ is the antonym of "beneficiary".

A. One who receives

B. Sponsorer

C. Inheritor

D. Successor

Q43. Identify the meaning of the idiom:

"Burn the midnight oil".

A. Enjoy someone else's money

B. Waste time

C. Spend more than you earn

D. Work late into the night

Q44. The sentence given below may contain one or more mistakes. Identify the correct sentence.

"I went to shopping with friends."

A. With friends I went to shopping.

B. To shopping I went with friends.

C. I went shopping with my friends.

D. I went to shopping with mine friends.

Q45. Complete the sentence by choosing the correct word.

The team of doctors successfully _____ on the patient.

A. operated

B. prescribed

C. followed

D. practiced



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q46. नीचे लिखे शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइयें।

दुष्ट

A. दीन

B. अरण्य

C. पामर

D. धाता

Q47. नीचे लिखे शब्द का विपरीत (विलोम) शब्द बताइयें।

जय

A. विजय

B. सजय

C. अजेय

D. पराजय

Q48. नीचे दिये गये मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ बतायें।

मुँह की खाना

A. चोट लग जाना

B. किसी से गाली खाना

C. जमीन पर गिर जाना

D. पराजित होना

Q49. रेखांकित शब्द का एकवचन बनायें।

हमे अपनी बहुओं को बेटी के समान ही मानना चाहिए।

A. बहु

B. बाहू

C. बहूँ

D. बहू

Q50. रेखांकित शब्द का एकवचन बनायें।

मेरे जूते हैं जापानी।

A. जुता

B. जूता

C. जूत्ता

D. जूतां



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q51. 500 shares of Rs. 10 each were forfeited due to non-payment of call money of Rs. 6 per share. Out of these 300 shares were re-issued at 10% discount. The amount transferred to capital reserve is:

- A. 2700
B. 3000
C. 1500
D. 1800

Q51. 10 रूपए प्रति मूल्य के 500 शेयर माँग राशि का भुगतान न करने की वजह से 6 रूपए पर शेयर जब्त कर लिए गए। इनमें से 300 शेयर 10% छूट पर फिर से जारी किए गए। तो बताइए कि पूँजी संचय में हस्तांतरित की जाने वाली राशि क्या होगी:

- A. 2700
B. 3000
C. 1500
D. 1800

Q52. Which among the following is the fundamental rule for recording transactions into nominal accounts?

- A. Debit the receiver and credit the giver
B. Debit what comes in and credit what goes out
C. Debit expenses & losses and credit gains & incomes
D. Debit value received and credit value given

Q52. नाममात्र खातों में लेन-देनों को दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत नियम है?

- A. प्राप्त करने वाले को नामें करें और देने वाले को जमा करें
B. जो अंदर आता है उसे नामें करें और जो बाहर जाता है उसे जमा करें
C. खर्च और हानियों को नामें करें और प्राप्तियों और आय को जमा करें
D. प्राप्त मूल्य को नामें में डालें और दिए गए मूल्य को जमा करें

Q53. Bad debts incurred by consignee, will not transfer the burden to consignor when he is paid _____.

- A. Commission
B. Declared commission
C. Overriding commission
D. Commission on profit

Q53. परेषिती द्वारा वहन किए गए डूबत ऋण का बोझ प्रेषक पर हस्तांतरित नहीं होगा जब उसने _____ का भुगतान किया हो।

- A. कमीशन
B. घोषित कमीशन
C. अधिभावी कमीशन
D. लाभ पर कमीशन

Q54. Which account is the odd one out?

- A. Office Furniture & Equipment
B. Freehold Land and Buildings
C. Stock of raw materials
D. Plant and Machinery



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q54. निम्नलिखित में से कौन सा खाता असंगत है?

A. कार्यालय फर्नीचर और उपकरण

B. फ्रीहोल्ड भूमि और भवन

C. कचरे माल का स्टॉक

D. संयंत्र और मशीन

Q55. Statement prepared to show the financial position at the end of the period is called _____.

A. Trial Balance

B. Balance Sheet

C. Trading Account

D. Profit & Loss Account

Q55. अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति को दिखाने के लिए तैयार विवरण को _____ कहा जाता है।

A. ट्रायल बैलेंस

B. बैलेंस शीट

C. ट्रेडिंग खाता

D. लाभ और हानि खाता

Q56. Which one of the following is not a wasting Asset?

A. Mines

B. Quarries

C. Oil Field

D. Patent

Q56. निम्नलिखित में से क्या एक अपक्षय संपत्ति नहीं है?

A. खान

B. पत्थर की खानें

C. तैलाशय

D. पेटेंट

Q57. Mr. X consigned goods of the cost of Rs. 20000 to his agent Mr. Y and incurred Rs. 4000 for insurance in transit. Mr. Y took delivery of the goods after spending Rs. 6000 towards freight. He sold 3/4 of the goods for Rs. 30000. Sales expense is Rs. 1000. Value of closing stock is:

A. 7500

B. 9000

C. 9500

D. 7750

Q57. श्रीमान X ने अपने एजेंट Y को 20000 रुपये की लागत का सामान भेजा और इसके लिए 4000 रुपये का पारगमन (ट्रांज़िट) बीमा वहन किया। श्रीमान Y ने 6000 रुपये का माल दुलाई भाड़ा खर्च करने के बाद माल की सुपुर्दी प्राप्त की। उन्होंने 3/4 माल को 30000 रुपये में बेच दिया। बिक्री करने पर 1000 रुपये का खर्च हुआ। तो बताइए कि अंतिम स्टॉक का मूल्य क्या है?

A. 7500

B. 9000

C. 9500

D. 7750



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q58. Goodwill is a _____ asset.

- A. Fixed
- B. Current
- C. Tangible
- D. Intangible

Q58. साख एक _____ संपत्ति है।

- A. अचल
- B. वर्तमान
- C. मूर्त
- D. अमूर्त

Q59. In the absence of partnership deed interest on loan is:

- A. no interest
- B. 5%
- C. 3%
- D. 6%

Q59. सहभागिता प्रलेख के आभाव में ऋण पर ब्याज कितना होता है:

- A. कोई ब्याज नहीं
- B. 5%
- C. 3%
- D. 6%

Q60. Mr. Y followed WDV Method and SLM Method of Depreciation during 2006 and 2007 respectively. He violated:

- A. Conservatism Principle
- B. Materiality Principle
- C. Consistency Principle
- D. Cost Principle

Q60. श्री Y ने क्रमशः 2006 और 2007 के दौरान मूल्यहास की डब्ल्यू.डी.वी. (WDV) विधि और एस.एल.एम. (SLM) विधि का पालन किया। उनके द्वारा किस चीज़ का उल्लंघन किया गया?

- A. रुढ़िवाद सिद्धांत
- B. पदार्थ सिद्धांत
- C. संगतता सिद्धांत
- D. लागत सिद्धांत

Q61. When transactions are incorrectly recorded they are known as _____.

- A. Technical errors
- B. Errors of omission
- C. Errors of commission
- D. Errors of duplication

Q61. जब लेन-देन गलत रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उन्हें _____ कहा जाता है।

- A. तकनीकी त्रुटियाँ
- B. चूक की त्रुटियाँ
- C. भूल की त्रुटियाँ
- D. दोहराव की त्रुटियाँ



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q62. Audit done continuously throughout an accounting year is called _____.

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. Complete audit | B. Continuous audit |
| C. Private audit | D. Interim audit |

Q62. एक लेखा वर्ष में साल भर किए जाने वाले लेखा परीक्षण (ऑडिट) को _____ कहते हैं।

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| A. पूर्ण लेखा परीक्षण | B. निरंतर लेखा परीक्षण |
| C. निजी लेखा परीक्षण | D. आंतरिक लेखा परीक्षण |

Q63. Examination of documentary evidence to ascertain the accuracy and authenticity of transactions recorded in the books of accounts is called _____.

- | | |
|-------------------|------------------|
| A. Vouching | B. Verification |
| C. Internal check | D. Investigation |

Q63. लेखा बहियों में दर्ज लेनदेन की शुद्धता और प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए दस्तावेज़ी सबूत की जाँच को _____ कहा जाता है।

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| A. प्रत्ययन (वाउचिंग) | B. सत्यापन (वेरिफिकेशन) |
| C. आंतरिक जाँच | D. अन्वेषण |

Q64. An audit report in which the auditor does not insert any qualification, modification or reservation is called _____.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| A. Qualified report | B. Negative report |
| C. Clean report | D. Positive report |

Q64. एक ऐसी लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट जिसमें लेखा परीक्षक (ऑडिटर) द्वारा परिवर्तन, संशोधन या आरक्षण सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसे _____ कहते हैं।

- | | |
|--------------------|----------------------|
| A. सापेक्ष रिपोर्ट | B. नकारात्मक रिपोर्ट |
| C. शुद्ध रिपोर्ट | D. सकारात्मक रिपोर्ट |

Q65. Shares held by each Director of the company as per the Articles are known as _____.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A. Preferential shares | B. Qualification shares |
| C. Convertible shares | D. Redeemable shares |



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q65. लेख के अनुसार कंपनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा रखे गए शेयर _____ कहे जाते हैं।

- A. अधिमान शेयर
- B. क्वालिफिकेशन शेयर
- C. परिवर्तनीय शेयर
- D. प्रतिदेय शेयर

Q66. Which of the following standards on Auditing deals with audit planning?

- A. SA 610
- B. SA 300
- C. SA 620
- D. SA 230

Q66. निम्नलिखित में से लेखा परीक्षण (ऑडिटिंग) का कौन सा मानक लेखा परीक्षण योजना से संबंधित है?

- A. एस.ए. 610
- B. एस.ए. 300
- C. एस.ए. 620
- D. एस.ए. 230

Q67. Capital expenditure is taken as a revenue expenditure, it is an error of:

- A. Omission
- B. Duplication
- C. Principle
- D. Commission

Q67. पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में ले लिया गया है, यह किस प्रकार की त्रुटि है?

- A. चूक
- B. दोहराव
- C. सिद्धांत
- D. भूल

Q68. Audit evidence states the :

- A. Involvement of the accountant
- B. Credibility of the company
- C. Trust worthiness of the management
- D. Reliability of audit evidence influenced by its source and nature

Q68. लेखा परीक्षण (ऑडिट) प्रमाण निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है?

- A. लेखाकार की भागीदारी
- B. कंपनी की साख
- C. प्रबंधन की विश्वसनीयता
- D. स्रोत और स्वभाव से प्रभावित लेखा परीक्षा का प्रमाण

Q69. One of the most important tools in cost planning is:

- A. Direct cost
- B. Budget
- C. Cost sheet
- D. Marginal costing



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q69. निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ लागत की योजना बनाने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है?

A. प्रत्यक्ष लागत

B. बजट

C. लागत शीट

D. सीमांत लागत

Q70. Costs which are ascertained after they have been incurred are known as:

A. Imputed cost

B. Sunk cost

C. Historical cost

D. Opportunity cost

Q70. ऐसे खर्चों को किस नाम से जाना जाता है, जो उनके खर्च हो जाने के बाद निर्धारित किए जाते हैं?

A. स्व लागत

B. विफल लागत

C. परंपरागत लागत

D. अवसर लागत

Q71. Accounting standard 2 recommends the valuation of inventory on:

A. Absorption costing

B. Marginal costing

C. Activity based costing

D. Job costing

Q71. लेखा मानक 2 इवेंट्री का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर करने की सिफारिश करता है?

A. अवशोषण लागत

B. सीमांत लागत

C. गतिविधि पर आधारित लागत

D. कार्य लागत

Q72. If lead time is 5 weeks, average weekly consumption is 28 units, the re-ordering level will be _____.

A. 120 units

B. 130 units

C. 140 units

D. 150 units

Q72. यदि समय सीमा (लीड समय) 5 सप्ताह है, औसत साप्ताहिक खपत 28 इकाई है, तो पुनः आदेश देने का स्तर _____ होगा।

A. 120 इकाईयाँ

B. 130 इकाईयाँ

C. 140 इकाईयाँ

D. 150 इकाईयाँ

Q73. Continuous stock taking is a part of:

A. Annual stock taking

B. Perpetual inventory

C. Periodic inventory

D. ABC analysis



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q73. निरंतर स्टॉक की जाँच करना, निम्नलिखित में से किस का हिस्सा है?

A. वार्षिक माल की जाँच

B. निरंतर माल सूची

C. आवधिक सूची

D. ए.बी.सी. विश्लेषण

Q74. Labour turnover is measured by:

A. EOQ

B. Last in first out Method

C. Flux method

D. First in first out method

Q74. श्रम टर्नओवर निम्नलिखित में से किस द्वारा मापी जाती है?

A. ई.ओ.क्यू.

B. लास्ट इन फर्स्ट आउट विधि

C. फ्लक्स विधि

D. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि

Q75. For a particular work the total remuneration is Rs. 3600. A and B can alone complete the work in 12 and 24 days respectively. What will be the remuneration of A if they can complete the work together from the starting of work?

A. 2400

B. 1200

C. 1800

D. 2000

Q75. किसी एक खास काम के लिए दिया जाने वाला कुल पारिश्रमिक 3600 रूपए है। A और B अकेले इस काम को क्रमशः 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे शुरुआत से एक साथ काम को पूरा करते हैं तो बताइए कि A का पारिश्रमिक क्या होगा?

A. 2400

B. 1200

C. 1800

D. 2000

Q76. Maximum possible productive capacity of a plant when no operating time is lost is called _____.

A. Practical capacity

B. Normal capacity

C. Theoretical capacity

D. Capacity based on sales expectancy

Q76. कोई संचालन समय नष्ट न होने पर एक संयंत्र की अधिकतम संभव उत्पादक क्षमता को _____ कहा जाता है।

A. व्यावहारिक क्षमता

B. सामान्य क्षमता

C. सैद्धांतिक क्षमता

D. बिक्री अपेक्षा के आधार पर क्षमता



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q77. Director's remuneration form part of:

- A. Production overhead
- B. Administration overhead
- C. Selling overhead
- D. Distribution overhead

Q77. निदेशक का पारिश्रमिक निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है:

- A. उत्पादन ओवरहेड
- B. प्रशासन ओवरहेड
- C. बिक्री ओवरहेड
- D. वितरण ओवरहेड

Q78. ABC costing is based on _____.

- A. Accounts
- B. Activity
- C. Arrangements
- D. Alternatives

Q78. ए.बी.सी. लागत _____ पर आधारित है।

- A. लेखा
- B. गतिविधि
- C. व्यवस्था
- D. वैकल्पिक

Q79. Prime cost plus variable overhead is known as:

- A. Production cost
- B. Marginal cost
- C. Total cost
- D. Cost of sales

Q79. जब मूल लागत में ऊपरी लागत जमा कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं?

- A. उत्पादन लागत
- B. सीमांत लागत
- C. कुल लागत
- D. बिक्री की लागत

Q80. In which of the following methods, issues of material are priced at pre-determined rate:

- A. Inflated price method
- B. Standard price method
- C. Replacement price method
- D. Specific price method

Q80. निम्नलिखित में से किस विधि में, जारी सामग्री एक पूर्व-निर्धारित दर पर मूल्य की जाती है?

- A. बढ़ी हुई दर विधि
- B. मानक मूल्य विधि
- C. प्रतिस्थापन मूल्य विधि
- D. निर्धारित मूल्य विधि



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q81. Bin card is maintained by the:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| A. Accounts department | B. Costing department |
| C. Stores | D. Purchase department |

Q81. बिन कार्ड को किस द्वारा बनाए रखा जाता है?

- | | |
|-----------------|---------------|
| A. लेखा विभाग | B. लागत विभाग |
| C. स्टोर | D. क्रय विभाग |

Q82. ABC Ltd manufactures a single product which it sells for Rs. 20 per unit. Fixed cost is Rs. 60000 per annum. The contribution to sales ratio is 40%. ABC Ltd breakeven point in units is:

- | | |
|----------------|---------|
| A. 7500 | B. 8000 |
| C. 7000 | D. 7400 |

Q82. ABC लिमिटेड एक एकल उत्पाद बनाती है जिसे वह 20 रूपए प्रति इकाई पर बेचती है। स्थिर लागत 60000 रूपए प्रति वर्ष है। बिक्री में योगदान का अनुपात 40% है। तो बताइए कि ABC की इकाईयों में लाभ-अलाभ स्थिति (ब्रेक ईवन प्वाइंट) निम्नलिखित में से क्या होगी?

- | | |
|----------------|---------|
| A. 7500 | B. 8000 |
| C. 7000 | D. 7400 |

Q83. An example of fixed cost is:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| A. Direct material cost | B. Works managers salary |
| C. Depreciation of machinery | D. Chargeable expenses |

Q83. निम्नलिखित में से स्थिर लागत का उदाहरण क्या है:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A. प्रत्यक्ष माल की लागत | B. कार्य प्रबंधकों का वेतन |
| C. मशीनरी का ह्रास | D. प्रभार्य व्यय |

Q84. The maximum period for which speculation loss can be carried forward is:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| A. 4 years | B. 6 years |
| C. 8 years | D. Indefinitely |

Q84. अनुमानित (स्पेक्यूलेशन) हानि को आगे ले जाए जाने की अधिकतम अवधि क्या है:

- | | |
|------------------|--------------------|
| A. 4 वर्ष | B. 6 वर्ष |
| C. 8 वर्ष | D. अनिश्चित काल तक |



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q85. Income under the Income tax Act is computed under:

- A. 5 heads
- B. 4 heads
- C. 6 heads
- D. 8 heads

Q85. आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय की गणना कितने शीर्षों के अंतर्गत की जाती है:

- A. 5 शीर्ष
- B. 4 शीर्ष
- C. 6 शीर्ष
- D. 8 शीर्ष

Q86. For non-payment or short payment of advance tax:

- A. Interest is payable under section 234A
- B. Interest is payable under section 234D
- C. Interest is payable under section 234B
- D. Interest is payable under section 234C

Q86. कर के गैर-भुगतान या कम भुगतान के लिए:

- A. ब्याज धारा 234A के तहत देय है
- B. ब्याज धारा 234D के तहत देय है
- C. ब्याज धारा 234B के तहत देय है
- D. ब्याज धारा 234C के तहत देय है

Q87. Mr. X a government employee gets Rs. 20000 as entertainment allowance for the year out of which he spends Rs. 2000 for official purpose, Rs. 5000 for personal purpose. One fifth of his basic salary amounts to Rs. 8000. The taxable entertainment allowance is:

- A. 20000
- B. 13000
- C. 18000
- D. 15000

Q87. श्रीमान X एक सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें एक वर्ष में 20000 मनोरंजन भत्ता मिलता है जिसमें से उन्होंने सरकारी उद्देश्य के लिए 2000 रुपये तथा निजी उद्देश्य के लिए 5000 रुपए खर्च किए। उनके मूल वेतन का पाँचवा हिस्सा 8000 रुपए है। तो बताइए कि उनका कर योग्य मनोरंजन भत्ता क्या होगा?

- A. 20000
- B. 13000
- C. 18000
- D. 15000

Q88. An individual who satisfied one of the basic conditions and has been a resident in India in 2 out of 10 preceding previous years, is said to be:

- A. Resident
- B. Resident and ordinarily resident
- C. Non resident
- D. Resident and not ordinarily resident



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q88. एक व्यक्ति जिसने बुनियादी शर्तों में से एक शर्त को पूरा किया है और जो पिछले 10 में से 2 वर्षों में भारत में रहा है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा:

- A. निवासी
- B. निवासी और सामान्यतः निवासी
- C. गैर निवासी
- D. निवासी और गैर सामान्यतः निवासी

Q89. National income is measured by:

- A. Ministry of Finance
- B. CSO (Central Statistics Office)
- C. RBI (Reserve Bank of India)
- D. SBI (State Bank of India)

Q89. राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मापी जाती है:

- A. वित्त मंत्रालय
- B. सी.एस.ओ. (केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)
- C. आर.बी.आई. (भारतीय रिज़र्व बैंक)
- D. एस.बी.आई. (भारतीय स्टेट बैंक)

Q90. In India most of the unemployment is:

- A. Disguised
- B. Open
- C. Cyclical
- D. Urban

Q90. भारत में अधिकांश बेरोज़गारी निम्नलिखित में से क्या है:

- A. प्रच्छन्न
- B. खुली
- C. चक्रीय
- D. शहरी

Q91. The main cause for unemployment in India is:

- A. Raising prices
- B. Increase in public expenditure
- C. Defective mandatory policy
- D. Improper utilization of resources

Q91. भारत में बेरोज़गारी का मुख्य कारण है:

- A. कीमतों में वृद्धि
- B. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि
- C. दोषपूर्ण अनिवार्य नीति
- D. संसाधनों का अनुचित उपयोग

Q92. _____ refers to public revenue, public expenditure and public debt.

- A. Monetary
- B. Fiscal
- C. Industrial
- D. Foreign



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q92. _____ शब्द सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण को संदर्भित करता है।

- A. मौद्रिक
- B. राजकोषीय
- C. औद्योगिक
- D. विदेशी

Q93. Contraction of demand is the result of:

- A. Decrease in number of consumers
- B. Increase in price
- C. Increase in price of related goods
- D. Decrease in the income of consumers

Q93. निम्नलिखित में से किसके परिणामस्वरूप माँग में कमी होती है:

- A. उपभोक्ताओं की संख्या में कमी
- B. कीमत में वृद्धि
- C. संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि
- D. उपभोक्ताओं की आय में कमी

Q94. The price of apples falls by 5% and quantity demanded rises by 6%, this means _____ demand.

- A. Elastic
- B. Perfectly elastic
- C. Inelastic
- D. Zero elastic

Q94. सेब की कीमत में 5% की गिरावट होने पर उसकी माँग में 6% की वृद्धि हुई, इसका अर्थ _____ माँग होता है।

- A. लोचदार
- B. पूर्ण लोचदार
- C. लोच रहित
- D. शून्य लोचदार

Q95. Deflation has a side effect of _____.

- A. Increase in unemployment
- B. Increase in demand
- C. Economic depression
- D. Increase in individual expenditure

Q95. अपस्फीति (डिफ्लेशन) का दुष्प्रभाव _____ होती है।

- A. बेरोजगारी में वृद्धि
- B. माँग में वृद्धि
- C. आर्थिक मंदी
- D. व्यक्तिगत खर्च में वृद्धि

Q96. Which of the following is the best example of agreement between oligopolists?

- A. OPEC
- B. WTO
- C. SAARC
- D. GATT



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q96. निम्न में से कौन अल्पाधिकार (ओलिगोपॉलिस्ट्स) के बीच समझौते का सबसे अच्छा उदाहरण है?

A. ओ.पी.ई.सी.

B. डब्ल्यू.टी.ओ.

C. एस.ए.ए.आर.सी.

D. जी.ए.टी.टी.

Q97. Calculate AFC at 2 units from following table:

Output	0	1	2
Total cost	580	695	850

A. 105

B. 235

C. 180

D. 290

Q97. निम्न तालिका से 2 इकाइयों में ए.एफ.सी. की गणना करें:

Output	0	1	2
Total cost	580	695	850

A. 105

B. 235

C. 180

D. 290

Q98. "Debit the receiver and credit the giver" relates which among the following accounts?

A. Personal Accounts

B. Impersonal Accounts

C. Real Accounts

D. Nominal Accounts

Q98. "प्राप्तकर्ता को नामे करें और देने वाले को जमा" यह इनमें से किस खाते से संबंधित है?

A. व्यक्तिगत खाते

B. निर्व्यक्तिक खाते

C. वास्तविक खाते

D. नाममात्र खाते

Q99. What is the primary objective of Tax Audit, as per 44 AB of Income Tax Act 1961?

A. To assist the management in computing tax liability accurately

B. To assist the tax authorities in assessing the correct income of the assessee

C. To assist the management in regard to effective tax planning

D. To assist the tax authorities to collect more tax revenue



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Afternoon Session**

Q99. आयकर अधिनियम 1961 के 44 AB के अनुसार कर लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A. कर देयता का सटीक रूप से परिगणन करने में प्रबंधन की मदद करना

B. निर्धारित की सही आय का मूल्यांकन करने में कर प्राधिकारियों की सहायता करना

C. प्रभावी कर योजना के संबंध में प्रबंधन की सहायता करना

D. अधिक कर राजस्व एकत्रित करने के लिए कर प्राधिकारियों की सहायता करना

Q100. IT of a person is determined on the basis of his:

A. residential status in India

B. citizenship in India

C. residential status outside India

D. citizenship outside India

Q100. एक व्यक्ति की आई.टी. उसके इस आधार पर निर्धारित की जाती है -

A. भारत की आवासीय स्थिति

B. भारत की नागरिकता

C. भारत से बाहर आवासीय स्थिति

D. भारत से बाहर की नागरिकता



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q1. _____ led the Indian freedom struggle through the 'Indian National Army'.

A. Lala Lajpat Rai

B. Subhash Chandra Bose

C. Bipin Chandra Pal

D. Dadabhai Naoroji

Q1. _____ ने 'भारतीय राष्ट्रीय सेना' के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया।

A. लाला लाजपत राय

B. सुभाषचंद्र बोस

C. बिपिन चंद्रपाल

D. दादाभाई नौरोजी

Q2. International Yoga Day is celebrated on _____ every year.

A. 5th September

B. 14th February

C. 21st June

D. 5th March

Q2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल _____ को मनाया जाता है।

A. 5 सितंबर

B. 14 फरवरी

C. 21 जून

D. 5 मार्च

Q3. Gir Forest National Park Wildlife Sanctuary is in _____.

A. Bihar

B. Maharashtra

C. Uttar Pradesh

D. Gujarat

Q3. गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य _____ में है।

A. बिहार

B. महाराष्ट्र

C. उत्तर प्रदेश

D. गुजरात

Q4. "Parent's Worship Day" is observed on 14th February in _____.

A. Chattisgarh

B. Uttarakhand

C. Rajasthan

D. Madhya Pradesh

Q4. ' मातृ-पितृ दिवस' _____ में 14 फरवरी को मनाया जाता है।

A. छत्तीसगढ़

B. उत्तराखंड

C. राजस्थान

D. मध्य प्रदेश



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q5. It has been found that Rakhigarhi village in the _____ district was one of the oldest ancient Indus Valley Civilization sites.

- A. Rewari
B. Mewat
C. Hisar
D. Fatehabad

Q5. यह पाया गया है कि _____ जिले का राखीगढ़ी गांव, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था।

- A. रेवाड़ी
B. मेवात
C. हिसार
D. फतेहाबाद

Q6. During the Mahabharata days, Haryana was known as _____.

- A. Dhandharti
B. Bahudhana
C. Iswar Niwas
D. Veerdharti

Q6. महाभारत के दिनों में, हरियाणा को _____ नाम से जाना जाता था।

- A. धनधरती
B. बहुधना
C. ईश्वर निवास
D. वीरधरती

Q7. History mentions that _____, the Chinese scholar visited Thanesar during the reign of King Harsha.

- A. Fa Hien
B. Megasthenes
C. Sung Yun
D. Hiuen Tsang

Q7. इतिहास में उल्लेख मिलता है कि _____ चीनी विद्वान, राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर गए थे।

- A. फा हियान
B. मेगस्थनीज
C. सुंग यून
D. हेन त्सांग

Q8. In the Third Battle of Panipat which was fought in the year 1761, Ahmed Shah Abdali, the _____ king, defeated the Marathas.

- A. Afghan
B. Persian
C. Mongolian
D. Turkish

Q8. 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में _____ बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया।

- A. अफगान
B. फ़ारसी
C. मंगोलियन
D. तुर्की



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q9. Indian actor Parineeti Chopra was born in _____.

- A. Ambala B. Faridabad
C. Rohtak D. Rewari

Q9. भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म _____ में हुआ था।

- A. अम्बाला B. फरीदाबाद
C. रोहतक D. रेवाड़ी

Q10. Indian wrestlers Geeta Phogat and Babita Phogat belong to which place in Haryana?

- A. Rewari B. Hisar
C. Rohtak D. Balali

Q10. भारतीय पहलवान गीता फोगट और बबीता फोगट हरियाणा में किस जगह की रहने वाली हैं?

- A. रेवाड़ी B. हिसार
C. रोहतक D. बलाली

Q11. Shri.Om Prakash Dhankar is the current _____ Minister of Haryana.

- A. Agriculture B. Education
C. Tourism D. Transport

Q11. श्री ओम प्रकाश धनकर हरियाणा के वर्तमान _____ मंत्री हैं।

- A. कृषि B. शिक्षा
C. पर्यटन D. परिवहन

Q12. What is the new name of Mewat district?

- A. Balrampradesh B. Balramgarh
C. Nuhar D. Nuh

Q12. मेवात जिले का नया नाम क्या है?

- A. बलरामप्रदेश B. बलरामगढ़
C. नुहार D. नुह



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q13. Who was the first Indian woman to win a gold medal at the Commonwealth games 2010?

- A. Kirti Singh
B. Sakshi Malik
C. Geeta Phogat
D. Babita Phogat

Q13. कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?

- A. कीर्ति सिंह
B. साक्षी मलिक
C. गीता फोगट
D. बबीता फोगट

Q14. Post Office Passport Seva Kendra (POPSK) is currently available in two districts of Haryana. Which is the third district identified to have a POPSK?

- A. Kurukshetra
B. Faridabad
C. Sirsa
D. Bhiwani

Q14. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.ओ.पी.एस.के.) वर्तमान में हरियाणा के दो जिलों में उपलब्ध है। उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहाँ पी.ओ.पी.एस.के. की स्थापना होने वाली है?

- A. कुरुक्षेत्र
B. फरीदाबाद
C. सिरसा
D. भिवानी

Q15. Surdas flourished during the reign of which Mughal emperor?

- A. Akbar
B. Humayu
C. Aurangzeb
D. Jahangir

Q15. किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सूरदास का बहुत नाम हुआ था?

- A. अकबर
B. हुमायूँ
C. औरंगज़ेब
D. जहांगीर

Q16. Which of the following weekly newsletter is published from Rohtak?

- A. Mera Rohtak
B. Haryana Tilak
C. Mera Haryana
D. Apno Desh

Q16. रोहतक से निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक न्यूज़लेटर प्रकाशित होता है?

- A. मेरा रोहतक
B. हरियाणा तिलक
C. मेरा हरियाणा
D. अपनो देश



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q17. 'Amanat Ek Shahid Ki' is written by _____.

- A. Shree Dhar
B. Guru Charan
C. Balram
D. Krishna Bachal

Q17. 'अमानत एक शहीद की' के लेखक _____ हैं।

- A. श्री धर
B. गुरु चरण
C. बलराम
D. कृष्ण बाचल

Q18. Banabhatta was a poet in the court of _____.

- A. Babar
B. Harshavardhana
C. Akbar
D. Gopal Singh

Q18. बाणभट्ट _____ के दरबार में एक कवि थे।

- A. बाबर
B. हर्षवर्धन
C. अकबर
D. गोपाल सिंह

Q19. Which of the following is a hill station in Haryana?

- A. Karnal
B. Sonipat
C. Pinjore
D. Morni

Q19. इनमें से कौन, हरियाणा का एक हिल स्टेशन है?

- A. करनाल
B. सोनीपत
C. पिंजौर
D. मोरनी

Q20. Which district of Haryana receives minimum rainfall?

- A. Kurukshetra
B. Sirsa
C. Ambala
D. Hisar

Q20. हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है?

- A. कुरुक्षेत्र
B. सिरसा
C. अम्बाला
D. हिसार



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q21. Damdama lake is situated in _____ district.

- A. Gurgaon B. Hisar
C. Rohtak D. Faridabad

Q21. दमदमा झील _____ जिले में स्थित है।

- A. गुड़गांव B. हिसार
C. रोहतक D. फरीदाबाद

Q22. The Aravalli Range that runs through Haryana is the _____ range.

- A. Eastern B. Southern
C. Central D. Northern

Q22. अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरता है वह _____ पर्वत श्रेणी है।

- A. पूर्वी B. दक्षिणी
C. मध्य D. उत्तरी

Q23. In most parts of Haryana, you can find the _____ type of soil cover.

- A. red B. sandy loam
C. desert D. clay

Q23. हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में, आपको _____ मिट्टी देखने को मिल सकती है।

- A. लाल B. बलुई दोमट
C. रेगिस्तानी D. चिकनी

Q24. The Governor is appointed for a term of _____ years.

- A. 4 B. 5
C. 6 D. No limit

Q24. राज्यपाल को _____ वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

- A. 4 B. 5
C. 6 D. कोई सीमा नहीं



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q25. Who appoints the Advocate-General of a State?

- A. Chief Justice of India
- B. President of India
- C. Prime Minister of India
- D. Governor of the State

Q25. एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?

- A. भारत का मुख्य न्यायाधीश
- B. भारत का राष्ट्रपति
- C. भारत का प्रधान मंत्री
- D. राज्य का राज्यपाल

Q26. The Haryana legislature is _____.

- A. Unicameral
- B. Bicameral
- C. Both Unicameral and Bicameral
- D. Neither Unicameral nor Bicameral

Q26. हरियाणा की विधायिका _____ है।

- A. एक सदनीय
- B. दो सदनीय
- C. एक सदनीय और दो सदनीय दोनों
- D. न तो एक सदनीय और न ही दो सदनीय

Q27. Haryana celebrates "Tree Day" on _____.

- A. 15th Aug
- B. 15th July
- C. 15th May
- D. 15th Mar

Q27. हरियाणा _____ को "वृक्ष दिवस" मनाता है।

- A. 15 अगस्त
- B. 15 जुलाई
- C. 15 मई
- D. 15 मार्च

Q28. Which of the following is the most prominently found tree in Haryana?

- A. Shisham
- B. Peepal
- C. Eucalyptus
- D. Aloe Vera

Q28. निम्नलिखित में से कौन सा पेड़, हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाने वाला पेड़ है?

- A. शीशम
- B. पीपल
- C. युकलिप्टस
- D. एलो वेरा



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q29. International Horticulture Market was set up in which district of Haryana?

- A. Panchkula B. Sonipat
C. Hisar D. Gurgaon

Q29. अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार, किस जिले में लगाया गया था?

- A. पंचकुला B. सोनीपत
C. हिसार D. गुड़गांव

Q30. Pick the odd one out:

Scissor, Knife, Sewing machine, Axe

- A. Scissor B. Sewing machine
C. Axe D. Knife

Q30. असंगत का चयन करें:

कैंची, चाकू, सिलाई मशीन, कुल्हाड़ी

- A. कैंची B. सिलाई मशीन
C. कुल्हाड़ी D. चाकू

Q31. Find the analogy.

mckC : Ckcm :: jhtY

- A. JHTy B. Ythj
C. JhtY D. YHTj

Q31. समानता का पता लगाएं।

mckC : Ckcm :: jhtY

- A. JHTy B. Ythj
C. JhtY D. YHTj

Q32. What should come at the place of question mark (?) in the following number series?

14, 38, 52, 66, ? , 94, 108

- A. 72 B. 70
C. 80 D. 88



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q32. निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या होना चाहिए?

14, 38, 52, 66, ?, 94, 108

A. 72

B. 70

C. 80

D. 88

Q33. In a certain code, ROSE is written as SPTF. What will be GARDEN written as?

A. HBSEFO

B. GARNED

C. BSHOFE

D. GRAEND

Q33. एक निश्चित कोड में, ROSE को SPTF लिखा जाता है। GARDEN को क्या लिखा जाएगा?

A. HBSEFO

B. GARNED

C. BSHOFE

D. GRAEND

Q34. 20500/500/10 = _____

A. 1.5

B. 2.2

C. 4.1

D. 3.3

Q34. 20500/500/10 = _____

A. 1.5

B. 2.2

C. 4.1

D. 3.3

Q35. A circle is divided into 15 equal parts in which 7 parts are shaded. If John throws a dart at the circle, what is the probability that the dart will hit on the shaded part?

A. 7/15

B. 5/15

C. 6/15

D. 1/15

Q35. एक चक्र को 15 बराबर भागों में विभाजित किया गया है जिनमें से 7 भागों को छायांकित किया गया है। यदि जॉन उस चक्र में एक डार्ट फेंकता है, तो इसकी क्या संभावना है कि डार्ट छायांकित भाग पर लगेगा?

A. 7/15

B. 5/15

C. 6/15

D. 1/15



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q36. A retailer purchased 15% of rice and 20% of wheat respectively from a wholesale unit. Another retailer purchased equal quantity of rice and wheat amounting to 25% from the same wholesale unit. Find the total percentage of rice that was purchased from the wholesale unit?

- A. 25.5% B. 24.5%
C. 26.5% **D. 27.5%**

Q36. एक खुदरा विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से क्रमशः 15% चावल और 20% गेहूं खरीदा। एक अन्य खुदरा विक्रेता ने उसी थोक विक्रेता से बराबर-बराबर परिमाण में 25% चावल और गेहूं खरीदा। थोक विक्रेता से कुल कितना प्रतिशत चावल खरीदा गया?

- A. 25.5% B. 24.5%
C. 26.5% **D. 27.5%**

Q37. Prakash spent Rs.1340 on repairing his camcorder, which he had bought for Rs.25000 one year back. He sold it for Rs.29800. What percentage of profit did he earn?

- A. 12.39% B. 11.45%
C. 13.13% D. 14.46%

Q37. प्रकाश ने अपने कैमकोर्डर की मरम्मत पर 1340 रुपये खर्च किए, जिसे उसने एक साल पहले 25,000 रुपये में खरीदा था। उसने इसे 29800 रुपये में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ?

- A. 12.39% B. 11.45%
C. 13.13% D. 14.46%

Q38. An electric motor in a washing machine converts electrical energy into _____ energy.

- A. Chemical **B. Mechanical**
C. Gravitational D. Radiant

Q38. एक वॉशिंग मशीन में एक इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत ऊर्जा को _____ ऊर्जा में बदलती है।

- A. रासायनिक **B. यांत्रिक**
C. गुरुत्वीय D. विकिरण

Q39. The common name of Ethanoic acid is _____.

- A. Lactic acid **B. Acetic acid**
C. Boric acid D. Sulphuric acid



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q39. एथोनिक एसिड का आम नाम _____ है।

A. लैक्टिक एसिड

B. एसिटिक एसिड

C. बोरिक एसिड

D. सल्फ्यूरिक एसिड

Q40. Anaerobic respiration takes place in the absence of _____.

A. Mitochondria

B. Oxygen

C. Hydrogen

D. Stomata

Q40. एनारोबिक श्वसन, _____ की अनुपस्थिति में होता है।

A. माइटोकॉन्ड्रिया

B. ऑक्सीजन

C. हाइड्रोजन

D. रंध्र

Q41. _____ is the synonym of "memorable".

A. Monument

B. Memorial

C. Unforgettable

D. Uninteresting

Q42. _____ is the antonym of "populous".

A. Less populated

B. Very popular

C. Overcrowded

D. Filled with

Q43. Identify the meaning of the idiom:

"Blessing in disguise."

A. Something that is not favorable

B. Something borrowed from someone

C. Something that is praiseworthy

D. Something that seems bad at first, but is actually favorable

Q44. The sentence given below may contain one or more mistakes. Identify the correct sentence.

"Sheela is going to library to see the friend."

A. Sheela is going to the library to see friend.

B. Sheela is going to library to see the friend.

C. Sheela is going to the library to see a friend.

D. Sheela is going to the library to see the friend.



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q45. Complete the sentence by choosing the correct form of the verb given in brackets.

Reema ran away when she _____ (see) me.

- A. see B. sees
C. had seen D. saw

Q46. नीचे लिखे शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइयें।

फूल

- A. सलिल B. गाछ
C. हिय D. मंजरी

Q47. नीचे लिखे शब्द का विपरीत (विलोम) शब्द बताइयें।

विग्रह

- A. शत्रुता B. विरोध
C. संधि D. पराधीन

Q48. रेखांकित मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ बतायें।

हिंदुस्तानी फौज को देखकर पाकिस्तानी आतंकवादी भीगी बिल्ली बन गये।

- A. कमजोर होना B. भयभीत हो जाना
C. रहम करना D. बिल्ली का म्याऊँ म्याऊँ करना

Q49. नीचे लिखे शब्द का एकवचन बनायें।

भाले

- A. भल्ला B. भाल
C. भाला D. भाल्ला



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q50. नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनायें।

संधि

A. संधीयाँ

B. संधीयो

C. संधियाँ

D. सन्धियो

Q51. Which financial statement represents the accounting equation: Assets = Liabilities + Owner's Equity

A. Income Statement

B. Statement of cash flows

C. Balance sheet

D. Profit & loss Account

Q51. कौन सा वित्तीय विवरण इस लेखांकन समीकरण को प्रस्तुत करता है: संपत्तियाँ = देयताएँ + स्वामी की इक्विटी

A. आय विवरण

B. नकदी प्रवाह विवरण

C. बैलेंस शीट

D. लाभ और हानि खाता

Q52. Money spent Rs. 100,000 as travelling expenses of the directors on trips abroad for purchase of capital assets is _____.

A. Capital Expenditure

B. Revenue Expenditure

C. Deferred Revenue Expenditure

D. Miscellaneous Expenditure

Q52. पूँजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए विदेशी दौरे पर निर्देशकों की यात्रा के लिए किया गया 100,000 रूपए का खर्च _____ है।

A. पूँजीगत व्यय

B. राजस्व खर्च

C. आस्थगित राजस्व व्यय

D. विविध व्यय

Q53. Original cost = Rs. 126,000. Salvage value = Rs 6000. What will be the depreciation for 2nd year as calculated using Units of Production Method, if units produced in 2nd year was 5,000 and total estimated production was 50,000?

A. 10,800

B. 11,340

C. 12,600

D. 12,000



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q53. मूल लागत = 126,000 रुपए है। रद्दी (सैल्वेज) का मूल्य = 6000 रुपए है। उत्पादन की इकाई विधि के उपयोग से गणना द्वारा दूसरे वर्ष का मूल्यहास कितना होगा, यदि दूसरे वर्ष में उत्पादन की गई इकाईयाँ 5,000 थी और अनुमानित उत्पादन 50,000 था?

- A. 10,800
B. 11,340
C. 12,600
D. 12,000

Q54. A Bank Reconciliation Statement is prepared to know the causes for the difference between:

- A. The balance as per cash column of Cash Book and the Pass Book
B. The balance as per bank column of Cash Book and the Pass Book
C. The balance as per bank column of Cash Book and balances as per cash column of Cash Book
D. The balances as per Cash Book when a certain amount is paid into the bank

Q54. बैंक समाधान विवरण को निम्न में से किन के बीच अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है:

- A. रोकड़ बही और पास बुक के नकदी कॉलम के अनुसार शेष
B. रोकड़ बही और पास बुक के बैंक कॉलम के अनुसार शेष
C. रोकड़ बही के बैंक कॉलम और रोकड़ बही के नकदी कॉलम के अनुसार शेष
D. रोकड़ बही के अनुसार शेष जब एक निश्चित राशि बैंक में भुगतान की गई हो

Q55. Present liability of uncertain amount, which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation, is termed as _____.

- A. Liability
B. Provision
C. Contingent liability
D. Contingent asset

Q55. अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व, जिसे एक निश्चित स्तर के अनुमान के उपयोग द्वारा विश्वसनीयता से मापा जा सकता है, वह क्या कहलाता है?

- A. दायित्व
B. प्रावधान
C. आकस्मिक देयता
D. आकस्मिक संपत्ति

Q56. In which of the following methods is the cost of the asset written off in equal proportion, during its useful economic life?

- A. Written down value method
B. Straight line method
C. Units of production method
D. Sum of the years' digits method



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q56. निम्नलिखित में किस विधि में संपत्ति की लागत उसके उपयोगी आर्थिक जीवन में एक बराबर अनुपात में काट दी जाती है?

- A. अवलेखित मूल्य विधि
B. सीधी कटौती विधि
C. इकाईयों का उत्पादन विधि
D. वर्षों का योग- डिजिट विधि

Q57. Cash book is a type of _____ but treated as a _____ of accounts.

- A. Subsidiary book, Principal book
B. Principal book, Subsidiary book
C. Subsidiary book, Subsidiary book
D. Principal book, Principal book

Q57. रोकड़ बही _____ का एक प्रकार है, लेकिन वह खातों की _____ रूप में उपयोग की जाती है।

- A. सहायक पुस्तक, मुख्य पुस्तक
B. मुख्य पुस्तक, सहायक पुस्तक
C. सहायक पुस्तक, सहायक पुस्तक
D. मुख्य पुस्तक, मुख्य पुस्तक

Q58. Accounting Standards in India are issued by _____ .

- A. Central Government
B. State Government
C. Institute of Chartered Accountants of India
D. Reserve bank of India

Q58. भारत में लेखा मानक _____ द्वारा जारी किए जाते हैं।

- A. केन्द्र सरकार
B. राज्य सरकार
C. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
D. भारतीय रिज़र्व बैंक

Q59. X Ltd. had allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro-rata basis. The amount payable on application is Rs.2. Mr. Vineet applied for 420 shares. The number of shares allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from Mr. Vineet will be _____ .

- A. 60 shares; Rs.120
B. 340 shares; Rs. 160
C. 320 shares; Rs. 200
D. 300 shares; Rs 240

Q59. X लिमिटेड ने यथानुपात आधार पर 14,000 शेयरों के आवेदकों को 10,000 शेयर आवंटित किए। आवेदन पर देय राशि 2 रूपए है। विनीत ने 420 शेयरों के लिए आवेदन किया। आवंटित किए गए शेयरों की संख्या और विनीत से देय आवंटन राशि के लिए समायोजन हेतु कैरी फॉरवर्ड की जाने वाली राशि _____ होगी।

- A. 60 शेयर; 120 रूपए
B. 340 शेयर; 160 रूपए
C. 320 शेयर; 200 रूपए
D. 300 शेयर; 240 रूपए



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q60. In the books of D Ltd., the machinery account shows a debit balance of Rs.60,000 as on April 1, 2012. The machinery was sold on September 30, 2013 for Rs. 30,000. The company charges depreciation at 20% p.a. on diminishing balance method. Find Depreciation for 2012-2013 and Profit or loss on sale of machinery.

- A. Depreciation = 6000; Profit/Loss = 6800 profit B. Depreciation = 9000; Profit/Loss = 6800 loss
C. Depreciation = 4800; Profit/Loss = 13200 profit **D. Depreciation = 12000; Profit/Loss = 13200 loss**

Q60. D लिमिटेड की किताबों में, 1 अप्रैल 2012 को 60,000 रूपए मशीनरी खाता डेबिट शेष दिखा रहा है। यह मशीनरी 30 सितंबर 2013 को 30,000 रूपए में बेची गई। कंपनी 20% प्रति वर्ष घटती शेष (डिमिनिशिंग डेप्रिशन) मूल्यहास प्रणाली पर हास चार्ज करती है। 2012-2013 के लिए हास ज्ञात करें और मशीनरी की बिक्री पर लाभ या हानि का पता लगाएँ?

- A. मूल्यहास = 6000; लाभ/हानि = 6800 लाभ B. मूल्यहास = 9000; लाभ/हानि = 6800 हानि
C. मूल्यहास = 4800; लाभ/हानि = 13200 लाभ **D. मूल्यहास = 12000; लाभ/हानि = 13200 हानि**

Q61. To test whether sales have been recorded, the auditor should draw a sample from a file of _____.

- A. Purchase orders B. Sales orders
C. Sales invoices D. Bill of loading

Q61. यह जाँच करने के लिए कि क्या बिक्री दर्ज की गई है, लेखा परीक्षक को _____ फाइल से नमूना लेना चाहिए।

- A. क्रय आदेश B. बिक्री आदेश
C. बिक्री चालान D. लदान का बिल

Q62. For vouching of which item, the auditor is most likely to examine cost records?

- A. Commission earned B. Bad debts recorded
C. Credit sales **D. Sale of scrap**

Q62. किस मद के प्रत्ययन (वाउचिंग) के लिए, लेखा परीक्षक द्वारा लागत रिकॉर्ड की जाँच करने की सबसे अधिक संभावना है?

- A. अर्जित कमीशन B. दर्ज किया गया डूबत ऋण
C. उधार बिक्री **D. स्क्रेप की बिक्री**

Q63. Audit of transaction does not include _____.

- A. Propriety audit **B. Efficiency - cum performance audit**
C. Audit of receipts D. Audit of expenditure



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q63. लेन-देन की लेखा परीक्षा में _____ शामिल नहीं है।

A. औचित्य लेखा परीक्षा

B. क्षमता एवं निष्पादन लेखा परीक्षा

C. प्राप्तियों की लेखा परीक्षा

D. व्यय की लेखा परीक्षा

Q64. Which of the following sections deal with qualifications of the auditor?

A. Section 141

B. Section 224

C. Section 226

D. Section 143

Q64. निम्नलिखित में से कौन सी धारा लेखा परीक्षक की योग्यता से संबंधित है?

A. धारा 141

B. धारा 224

C. धारा 226

D. धारा 143

Q65. Which of the following expenses should not be treated as capital expenditure?

A. Expenses paid on installation of a plant.

B. Cost of dismantling a building in case a new building is to be constructed on the land.

C. Legal expenses incurred to defend a suit related to title of patent. The suit has been lost.

D. The fees paid to engineer who constructed the plant.

Q65. निम्नलिखित में से कौन से व्ययों को पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए?

A. संयंत्र की स्थापना पर भुगतान किया गया व्यय।

B. एक इमारत को गिराने का खर्च यदि उस भूमि पर एक नई इमारत बनाई जानी हो।

C. पेटेंट के नाम से संबंधित मुकदमे के बचाव में वहन किया गया कानूनी खर्च।

D. संयंत्र का निर्माण करने वाले इंजीनियर की फीस का भुगतान।

Q66. Auditing standards differ from audit procedures in that procedures relate to _____.

A. Audit assumptions

B. Acts to be performed

C. Quality criterion

D. Methods of work

Q66. लेखा परीक्षा मानक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं से भिन्न हैं क्योंकि ये _____ से संबंधित होते हैं।

A. लेखा परीक्षा मान्यताएँ

B. निष्पादन किए जाने वाले कार्य

C. गुणवत्ता की कसौटी

D. काम करने के तरीके



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q67. Equity shares of ABC Ltd. held by XYZ Ltd. are in the custody of Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL). The auditor may verify this investment by _____.

- | | |
|--|--|
| A. Reviewing last years' working papers. | B. Obtaining a certificate from a responsible official of the ABC Ltd. |
| C. Obtaining a certificate from SHCIL | D. Obtaining a certificate from XYZ Ltd. |

Q67. XYZ लिमिटेड द्वारा ABC लिमिटेड के रखे गए इक्विटी शेयर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस.एच.सी.आई.एल.) की ज़मानत में हैं। लेखा परीक्षक द्वारा इस निवेश की जाँच _____ की जा सकती है।

- | | |
|--|---|
| A. पिछले वर्ष के काम के दस्तावेज़ों की जाँच करके | B. ABC लिमिटेड के एक जिम्मेदार अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके |
| C. एस.एच.सी.आई.एल. से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके | D. XYZ लिमिटेड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके |

Q68. Which of the following is not an example of a circumstance, in which additional tests of control will not be performed after obtaining an understanding to plan the audit?

- | | |
|--|--|
| A. Controls are known to be cost ineffective. | B. Controls are effective but auditor opines that performing tests of control and reduced substantive tests would not be cost effective. |
| C. Controls are effective and evidence already obtained is adequate to support a planned assessed level of control risk which is less than high. | D. Performing extensive substantive testing would not lead to efficiency. |

Q68. निम्न में से कौन एक ऐसी परिस्थिति का उदाहरण नहीं है, जिसमें लेखा परीक्षा के लिए योजना की जानकारी प्राप्त करने के बाद नियंत्रण का अतिरिक्त परीक्षण नहीं किया जाएगा?

- | | |
|---|---|
| A. नियंत्रण को लागत अप्रभावी माना जाता है। | B. नियंत्रण प्रभावी होते हैं लेकिन लेखा परीक्षक का मानना है कि नियंत्रण का परीक्षण करना और मूल परीक्षण में कमी करना लागत प्रभावी नहीं होगा। |
| C. नियंत्रण प्रभावी हैं और पहले से प्राप्त किए गए प्रमाण नियंत्रण जोखिम के स्तर का मूल्यांकन करने का समर्थन करने के लिए पर्याप्त हैं, जो उच्च से कम है। | D. व्यापक मूल परीक्षण करने से कुशलता नहीं होगी। |

Q69. A typical factory overhead cost is:

- | | |
|---|----------------------------|
| A. Freight out | B. Stationery and printing |
| C. Depreciation on machinery and equipment | D. Postage |



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q69. निम्न में से क्या एक कारखाने की सामान्य ऊपरी लागत है:

- A. बाहरी माल भाड़ा
- B. स्टेशनरी और प्रिंटिंग
- C. मशीनरी और उपकरणों पर हास
- D. डाक-व्यय

Q70. Which of the following cost is associated with Labour turnover?

- A. Preventive Cost
- B. Training Cost
- C. Sunk Cost
- D. Pre-production cost

Q70. निम्न में से कौन सी लागत श्रम (लेबर) टर्नओवर के साथ जुड़ा हुई है?

- A. निवारक लागत
- B. प्रशिक्षण लागत
- C. विफल लागत
- D. पूर्व-उत्पादन लागत

Q71. Which among the following is not a cause of labour turnover?

- A. Personal Cause
- B. Unavoidable Cause
- C. Avoidable Cause
- D. Predictable Cause

Q71. निम्नलिखित में से कौन श्रम (लेबर) टर्नओवर का एक कारण नहीं है?

- A. व्यक्तिगत कारण
- B. अपरिहार्य कारण
- C. परिहार्य कारण
- D. अपेक्षित कारण

Q72. If the minimum stock level and average stock level of raw-material A are 4,000 and 9,000 respectively what is its re-order quantity?

- A. 10,000
- B. 5,000
- C. 13,000
- D. 15,000

Q72. यदि A नाम के कच्चे-माल का न्यूनतम स्टॉक स्तर और औसत स्टॉक स्तर क्रमशः 4,000 और 9,000 है, तो बताइए कि उसकी पुनःआदेश मात्रा कितनी होगी?

- A. 10,000
- B. 5,000
- C. 13,000
- D. 15,000



Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session

Q73. Unit cost information is important for making all of the following marketing decisions except _____.

- | | |
|--|---|
| A. Determining the selling price of a product | B. Bidding on contracts |
| C. Determining the amount of advertising needed to promote the product | D. Determining the amount of profit that each product earns |

Q73. इकाई लागत जानकारी निम्नलिखित विपणन फैसले में से _____ को छोड़कर सभी के लिए महत्वपूर्ण है।

- | | |
|---|--|
| A. उत्पाद के बिक्री मूल्य निर्धारण | B. ठेकों की बोली लगाना |
| C. उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विज्ञापन की मात्रा का निर्धारण | D. प्रत्येक उत्पाद द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ की मात्रा का निर्धारण |

Q74. Which among the following statements is not true?

- | | |
|--|--|
| A. $P/V \text{ Ratio} = \frac{\text{Change in profit}}{\text{Change in sales}} \times 100$ | B. $\text{Total Fixed Cost} = \text{Total Contribution} + \text{Profit}$ |
| C. $P/V \text{ Ratio} = \frac{\text{Fixed Cost}}{\text{BES}}$ | D. $P/V \text{ Ratio} = \frac{\text{Contribution}}{\text{Sales}}$ |

Q74. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A. पी/वी अनुपात = लाभ में परिवर्तन/बिक्री में परिवर्तन $\times 100$ | B. कुल स्थिर लागत = कुल योगदान + लाभ |
| C. पी/वी अनुपात = स्थिर लागत/बी.ई.एस. | D. पी/वी अनुपात = योगदान/बिक्री |

Q75. Which among the following is not used for apportionment?

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| A. Labour Cost | B. Work Cost |
| C. Sales value or quantity | D. Gross profit on sales |

Q75. निम्नलिखित में से किस्का उपयोग प्रभाजन (अपोर्शन्मेंट) के लिए नहीं किया जाता है?

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| A. श्रम लागत | B. कार्य लागत |
| C. बिक्री मूल्य अथवा मात्रा | D. बिक्री पर सकल लाभ |

Q76. Which among the following is not an unavoidable cause?

- | | |
|--------------------------------|--|
| A. Seasonal nature of business | B. Discontentment over the job / working environment |
| C. Change in plant location | D. Disability, making a worker unfit for work |



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q76. निम्नलिखित में से क्या एक अपरिहार्य कारण नहीं है?

A. व्यापार की मौसमी प्रकृति

B. काम या काम वातावरण पर असंतोष

C. संयंत्र के स्थान में परिवर्तन

D. विकलांगता, काम के लिए वर्कर का अयोग्य होना

Q77. The rate of interest is 12%, the price per unit is Rs.50, the number of units required in a year is 5000 and the cost of placing one order and receiving the goods once is Rs.54. How many units should be purchased at a time?

A. 250 units

B. 300 units

C. 400 units

D. 450 units

Q77. ब्याज की दर 12% है, प्रति यूनिट कीमत 50 रुपए है, एक वर्ष में आवश्यक इकाइयों की संख्या 5000 है और एक ऑर्डर देने और एक बार माल प्राप्त करने की लागत 54 रुपए है। तो बताइए कि एक समय पर कितनी इकाइयाँ खरीदी जानी चाहिए?

A. 250 इकाइयाँ

B. 300 इकाइयाँ

C. 400 इकाइयाँ

D. 450 इकाइयाँ

Q78. From the following data, find out the Break Even Point of Lee Ltd.

Variable Cost = 60,000 (60%), Fixed Cost = 30,000 (30%), Net profit = 10,000 (10%) and Sales = 1,00,000 (100%)

A. 65,000

B. 75,000

C. 70,000

D. 85,000

Q78. निम्न डाटा से Lee लिमिटेड का लाभ-अलाभ स्थिति (ब्रेक इवन प्वाइंट) बताएँ।

परिवर्तनीय लागत = 60,000 (60%), स्थिर लागत = 30,000 (30%), शुद्ध लाभ = 10,000 (10%) और बिक्री = 1,00,000 (100%)

A. 65,000

B. 75,000

C. 70,000

D. 85,000

Q79. Calculate Marginal Safety if a company produces single product which sells for Rs.20 per unit. Variable cost is Rs. 15 per unit and fixed overhead for the year is Rs. 6,30,000 and profit is Rs. 60,000.

A. 2,50,000

B. 2,60,000

C. 2,40,000

D. 2,30,000

Q79. यदि एक कंपनी एक एकल उत्पाद का उत्पादन करती है जो 20 रुपए प्रति इकाई पर बिकता है। अस्थिर लागत 15 रुपए प्रति इकाई है और वर्ष के लिए स्थिर ओवरहेड 6,30,000 रुपए तथा लाभ 60,000 रुपए है, तो उसकी सीमांत लागत की गणना करें।

A. 2,50,000

B. 2,60,000

C. 2,40,000

D. 2,30,000



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q80. Three workers A, B and C are put on a common task for which the total remuneration is Rs.150. A works for 40 hours, B works for 60 hours and C works for 44 hours on the job. The hourly rate is Rs. 0.75 for A; B gets Rs. 0.80 per hour while C gets Rs. 0.50 per hour. What remuneration will each man get?

A. A = Rs. 45, B = Rs. 75, C = Rs. 33

B. A = Rs. 40, B = Rs. 70, C = Rs. 30

C. A = Rs. 50, B = Rs. 80, C = Rs. 37

D. A = Rs. 40, B = Rs. 70, C = Rs. 44

Q80. तीन वर्कर A, B और C को एक साझे काम पर लगाया जिसके लिए कुल पारिश्रमिक 150 रूपए है। A ने 40 घंटे काम किया, B ने 60 घंटे काम किया और C ने 44 घंटे काम किया। A के लिए प्रति घंटा दर 0.75 है; B के लिए प्रति घंटा दर 0.80 और C के लिए प्रति घंटा दर 0.50 है। तो बताइए कि प्रत्येक आदमी को कितना पारिश्रमिक मिलेगा।

A. A = 45 रूपए, B = 75 रूपए, C = 33 रूपए

B. A = 40 रूपए, B = 70 रूपए, C = 30 रूपए

C. A = 50 रूपए, B = 80 रूपए, C = 37 रूपए

D. A = 40 रूपए, B = 70 रूपए, C = 44 रूपए

Q81. A company produces product A which sells for Rs.20 per unit. Variable cost is Rs. 15 per unit and Fixed overhead for the year is Rs. 6,30,000. Calculate sales value needed to earn a profit of 10% on sales. Calculate sales price per unit to bring BEP down to 1,20,000.

A. Sales value = 1,50,000 , Sales to bring down BEP = 23.25

B. Sales value = 3,00,000, Sales to bring down BEP = 30.25

C. Sales value = 2,50,000 , Sales to bring down BEP = 25

D. Sales value = 2,10,000 , Sales price to bring down BEP = 20.25

Q81. एक कंपनी A उत्पाद का उत्पादन करती है जो 20 रूपए प्रति इकाई पर बेचा जाता है। अस्थिर लागत 15 रुपये प्रति इकाई है और वर्ष के लिए स्थिर ओवरहेड 6,30,000 रूपए है।

बिक्री पर 10% का लाभ कमाने की ज़रूरत के अनुसार बिक्री मूल्य की गणना करें।

बी.ई.पी. को 1,20,000 तक नीचे लाने के लिए प्रति यूनिट बिक्री मूल्य की गणना करें।

A. बिक्री मूल्य = 1,50,000 , बी.ई.पी. को नीचे लाने के लिए बिक्री = 23.25

B. बिक्री मूल्य = 3,00,000, बी.ई.पी. को नीचे लाने के लिए बिक्री = 30.25

C. बिक्री मूल्य = 2,50,000, बी.ई.पी. को नीचे लाने के लिए बिक्री = 25

D. बिक्री मूल्य = 2,10,000 , बी.ई.पी. को नीचे लाने के लिए बिक्री = 20.25

Q82. XYZ Ltd. requires component A for manufacturing their products. Calculate the Economic Order Quantity using the information given below. Annual demand for component A = 8,000 units, cost of placing an order = Rs. 200 per order, cost per unit of A Rs.400, carrying cost % p. a 20%.

A. 300 units

B. 200 units

C. 250 units

D. 350 units



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q82. XYZ लिमिटेड को अपने उत्पादों के निर्माण के लिए घटक A की आवश्यकता है। नीचे दी गई जानकारी के उपयोग से आर्थिक आदेश मात्रा की गणना करें।

घटक A के लिए वार्षिक मांग = 8,000 इकाइयाँ, आदेश देने की लागत = 200 रुपये प्रति आदेश, A की प्रति इकाई लागत 400 रुपये, प्रति वर्ष रखरखाव लागत 20%।

A. 300 इकाइयाँ

B. 200 इकाइयाँ

C. 250 इकाइयाँ

D. 350 इकाइयाँ

Q83. In a company, weekly minimum and maximum consumption of material A are 25 and 75 units respectively. The reorder quantity as fixed by the company is 300 units. The material is received within 4-6 weeks from issue of supply order. Calculate minimum level and maximum level of material A.

A. Minimum = 100 units, Maximum = 300 units

B. Minimum = 200 units, Maximum = 600 units

C. Minimum = 250 units, Maximum = 650 units

D. Minimum = 150 units, Maximum = 350 units

Q83. एक कंपनी में A सामग्री की साप्ताहिक न्यूनतम और अधिकतम खपत क्रमशः 25 और 75 इकाइयाँ हैं। कंपनी द्वारा निर्धारित पुनः आदेश मात्रा 300 इकाइयाँ है। आपूर्ति आदेश के जारी होने के 4-6 सप्ताह के भीतर सामग्री प्राप्त होती है। सामग्री A के न्यूनतम स्तर और अधिकतम स्तर की गणना करें।

A. न्यूनतम = 100 इकाइयाँ, अधिकतम = 300 इकाइयाँ

B. न्यूनतम = 200 इकाइयाँ, अधिकतम = 600 इकाइयाँ

C. न्यूनतम = 250 इकाइयाँ, अधिकतम = 650 इकाइयाँ

D. न्यूनतम = 150 इकाइयाँ, अधिकतम = 350 इकाइयाँ

Q84. Income which accrue outside India from a business controlled from India is taxable in case of:

A. Residential only

B. Not ordinarily resident only

C. Both ordinarily resident and Not ordinarily Resident

D. Non-resident

Q84. भारत से नियंत्रित किए जाने वाले व्यापार के लिए भारत के बाहर से प्राप्त होने वाली आय निम्न में से किसके लिए कर योग्य होगी:

A. केवल निवासी

B. केवल सामान्य निवासी नहीं

C. सामान्य निवासी और सामान्य निवासी नहीं, दोनों के लिए

D. गैर-निवासी

Q85. Dividend paid by an Indian Company is :

A. Taxable in India in the hands of recipient

B. Exempt in the hands of recipient

C. Taxable in the hands of company and exempts in the hands of the recipients

D. Not taxable



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q85. भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान किया लाभांश :

- A. प्राप्तकर्ता के हाथों में भारत में कर योग्य होता है B. प्राप्तकर्ता के हाथों में छूट प्राप्त होता है
C. कंपनी के हाथों में कर योग्य और प्राप्तकर्ता के हाथों में छूट प्राप्त होता है D. कर योग्य नहीं होता है

Q86. "The value of total output of finished goods and services for any economy during a year " is the definition of _____ .

- A. Net National Income B. Gross National Product
C. Gross Domestic Product D. National Outlay

Q86. "एक वर्ष के दौरान किसी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार माल और सेवाओं के कुल उत्पादन का मूल्य", यह _____ की परिभाषा है।

- A. शुद्ध राष्ट्रीय आय B. सकल राष्ट्रीय उत्पाद
C. सकल घरेलू उत्पाद D. राष्ट्रीय परिव्यय

Q87. National Income is viewed in terms of _____ .

- A. Calendar year (January - December) B. Financial year (April - March)
C. U.N year D. Quarterly basis

Q87. राष्ट्रीय आय _____ के अनुसार देखी जाती है।

- A. कैलेंडर वर्ष (जनवरी - दिसंबर) B. वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च)
C. यू.एन वर्ष D. तिमाही आधार

Q88. 'VAT' is an _____ .

- A. Excise duty B. Ad valorem tax
C. Direct tax D. Specific tax

Q88. वैट (VAT) एक _____ है।

- A. उत्पाद शुल्क B. यथामूल्य कर
C. प्रत्यक्ष कर D. विशिष्ट कर



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q89. "India's economic policy: Preparing for the 21st Century" is a book written by _____ .

A. C. Rangarajan

B. Damodaran

C. Bimal Jalan

D. Vijay Kelkar

Q89. "भारत की आर्थिक नीति: 21वीं सदी के लिए तैयारी", यह पुस्तक _____ द्वारा लिखी गई है।

A. सी. रंगराजन

B. दामोदरन

C. बिमल जालान

D. विजय केलकर

Q90. Which of the following will represent the Tobin tax?

A. A tax levied on Nationalised banks

B. To invest in infrastructural development

C. A tax imposed on industries which entertains contract labourers

D. A tax imposed on all transactions in capital market for FII

Q90. निम्न में से कौन टोबिन टैक्स को प्रस्तुत करेगा?

A. राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लगाया गया कर

B. अवसंरचनात्मक विकास में निवेश करना

C. ठेके के मजदूरों मनोरंजन हेतु उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर

D. एफ.आई.आई. के लिए पूंजी बाज़ार में सभी लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर

Q91. Double counting means _____ .

A. Counting a product at different stages of production

B. Counting a product at first stage and last stage of production

C. Counting a product more than once

D. Misleading conclusion about size of National product

Q91. दोहरी गिनती का अर्थ _____ है।

A. उत्पादन के विभिन्न चरणों में उत्पाद की गिनती

B. उत्पाद के पहले चरण और अंतिम चरण में उत्पाद की गिनती

C. एक उत्पाद की एक से अधिक बार गिनती

D. राष्ट्रीय उत्पाद के आकार के बारे में भ्रामक निष्कर्ष

Q92. The gap between Domestic product and National product is significant for a country with _____ .

A. Small foreign investment

B. Medium foreign investment

C. No foreign investment

D. Huge foreign investment



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q92. घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर एक _____ वाले देश के लिए महत्वपूर्ण है।

- A. लघु विदेशी निवेश
- B. मध्यम विदेशी निवेश
- C. कोई विदेशी निवेश नहीं
- D. बड़े विदेशी निवेश

Q93. In India which of the following is regulated by Forward Market Commission?

- A. Currency futures trading
- B. Equity futures trading
- C. Commodities futures trading
- D. Forex trading

Q93. भारत में निम्न में कौन फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है?

- A. क्रंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग
- B. इक्विटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग
- C. कमॉडिटीस फ्यूचर्स ट्रेडिंग
- D. विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग

Q94. Which one of the following brings out the publication called 'Energy Statistics' from time to time?

- A. Central Statistical Organization
- B. Planning Commission
- C. Power Finance Corporation Ltd.
- D. Central Power Research Institute

Q94. निम्न में से कौन समय समय पर 'ऊर्जा सांख्यिकी' नामक प्रकाशन प्रकाशित करता/करती है?

- A. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
- B. योजना आयोग
- C. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- D. केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

Q95. Debit balance in Cash Book means

- A. Overdraft
- B. Overdue balance
- C. Favourable balance
- D. Credit balance

Q95. रोकड़ बही में नामे शेष का अर्थ है –

- A. ओवरड्राफ्ट
- B. अतिदेय शेष
- C. अनुकूल शेष
- D. जमा शेष

Q96. Overhead Budget Variance is a sub-variance of which of the following?

- A. Overhead volume variance
- B. Overhead efficiency variance
- C. Overhead cost variance
- D. Overhead price variance



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q96. उपरीव्यय बजट अंतर, इनमें से किसका उप-अंतर है?

- A. उपरीव्यय प्रमात्रा अंतर
- B. उपरीव्यय कार्यक्षमता अंतर
- C. उपरीव्यय लागत अंतर
- D. उपरीव्यय कीमत अंतर

Q97. Who conducts the Management audit of a company?

- A. Qualified cost accountant
- B. Qualified chartered accountant
- C. An accountant
- D. Any knowledgeable person

Q97. कंपनी की प्रबंधन लेखा परीक्षा कौन करता है?

- A. अर्हताप्राप्त लागत लेखाकार
- B. अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार
- C. लेखाकार
- D. जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति

Q98. Which of the following is not a relevant cost?

- A. Replacement cost
- B. Sunk cost
- C. Marginal cost
- D. Depreciation

Q98. इनमें से कौन सा विकल्प संगत लागत नहीं है?

- A. प्रतिस्थापन लागत
- B. डूबी लागत
- C. सीमान्तक लागत
- D. मूल्यहास

Q99. Which of the following is the income effect of inferior goods?

- A. More
- B. Negative
- C. Perfectly elastic
- D. Inelastic

Q99. इनमें से कौन सा विकल्प निष्कृष्ट माल का आय प्रभाव है?

- A. अधिक
- B. नकारात्मक
- C. आदर्श रूप से प्रत्यास्थ
- D. अप्रत्यास्थ



**Adv. No. 7/2015 Cat No. 07, Auditor (Local Audit Department, Haryana)
Evening Session**

Q100. Exemption under section 54 is available to -

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A. All assesseees | B. Individuals only |
| C. Individual + HUF | D. Any Partner |

Q100. धारा 54 के तहत छूट इन्हें मिलती है -

- | | |
|------------------------|-------------------|
| A. सभी निर्धारिती | B. केवल व्यक्ति |
| C. व्यक्ति + एच.यू.एफ. | D. कोई भी साझेदार |